

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27—सितम्बर 2, 2016 (भाद्रपद 5, 1938)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27—SEPTEMBER 2, 2016 (BHADRA 5, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2016

(सेना शाखा)

सं. 184, दिनांक 2 अगस्त 2016—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले0 के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से)

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 135 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से स्थायी रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 79963एल अभ्योदय पाण्डेय (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79962एच अभिषेक कुमार सिंह (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले० के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से)

निम्नलिखित दो कैडेट्स जो कि 136 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से स्थायी रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80543एक्स शलभ शरद (एएडी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80542पी नरेन कुमार डी (इंजीनियर्स) के नीचे, आई सी संख्या 80619एम शैलेन्द्र सिंह (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80618के अनूप यादव (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित 02 (दो) जैण्टलमैन कैडेट्स (जी सी) जो कि 21 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले यू (प्रदर्शित यू ई एस) उपसर्ग लगे हुए हैं को 08 जून 2013 (पूर्वाहन) से सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 10 जून 2012 से सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है।

यू/1244 अखिलेश कुमार (आई सी 78133 एच), ईएमई की वरीयता टी/7252 अमन नन्दा (आई सी 78132 ए) एसी के नीचे, यू/1225 नितेश टहलरमानी (आई सी 78205 एफ), एसी की वरीयता टी/7239 मांडवगडे मोहन यशवन्त (आई सी 78206 के) एएडी के ऊपर जिनके नाम भारत के राजपत्र, भाग I अनुभाग 4 में प्रकाशित हो चुके हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले० के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से)

निम्नलिखित दो कैडेट्स जो कि 136 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से स्थायी रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80555एम सत्येन्द्र कुमार गिरी (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80554 के अर्जुन अरुण कुमार (एसी) के नीचे, आई सी संख्या 80614एन ऋतुराज सिंह रावत (सिगनल्स) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80613एल धनंजय सिंह हुड्डा (एसी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित 02 (दो) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 21 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :-

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्म्स/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
21 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम				
यू/1225	नितेश टहलरमानी	46622 ए	सिगनल्स	01 जुलाई 11
यू/1244	अखिलेश कुमार	46641 एल	ईएमई	01 जुलाई 11

जैण्टलमैन कैडेट्स को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य हैं।

एस एन मिश्रा
ले.कर्नल
एएमएस-8वी

सेना शाखा

सं. 185, दिनांक 3 अगस्त 2016—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले० के पद पर दिनांक 14 दिसम्बर 2013 से)

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 133 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 14 दिसम्बर 2013 से स्थायी रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 78611एफ मनीष यादव (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78610वाई सुनेष सूदन(आर्टी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले० के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से)

निम्नलिखित तीन कैडेट्स जो कि 135 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से स्थायी रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 79983वाई अक्षत जोशी (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79982डब्ल्यू विकास सिंह राणा (आर्टी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले० के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से)

निम्नलिखित सात कैडेट्स जो कि 136 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से स्थायी रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80298ए शानदीप बल (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80297एक्स वासिफ मजीद टाक (एसी) के नीचे, आई सी संख्या 80377पी स्वराज सिंह (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80376एम राहुल कुमार सिंह(एएडी) के नीचे, आई सी संख्या 80436डब्ल्यू विकेक त्यागी (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80435एन नीलेश कुमार पाण्डेय (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 80545एच सुमीत कुमार जाना (इंजीनियर्स) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80544ए नवीन कुमार (एएससी) के नीचे, आई सी संख्या 80556पी पुष्पेन्द्र सिंह (एसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80555एम सत्येन्द्र कुमार गिरी (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 80590पी यतीन भारद्वाज (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80589ए अनिकेत पवार (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 80606पी रितुराज मिश्रा (मैक) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80605एम विशाल सोलंकी (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले० के पद पर दिनांक 14 जून 2014 से)

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 134 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 14 जून 2014 से स्थायी रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 79078के सीमांत सिंह (इंजीनियर्स) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79077एफ अजीत सिंह (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले० के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से)

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 136 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से स्थायी रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80219ए अंकित सौरभ (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80218एक्स श्रवण कुमार सिंह(इन्ट) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले० के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से)

निम्नलिखित सात कैडेट्स जो कि 135 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से स्थायी रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 79775के गुरजीत सिंह (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79774एफ डी सेहगल (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 79799एन सन्नी कुमार (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79798एल अति नरेश कुमार (एएडी) के नीचे, आई सी संख्या 79849एन सिद्धार्थ तिवारी (इंजीनियर्स) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79848एल अक्षय कुमार (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 79868वाई कृष्णा वीर सिंह (एओसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79867डब्ल्यू शंशाक दलाल (एसी) के नीचे, आई सी संख्या 79921वाई विपुल चन्द्र मोतीवाला (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79920 डब्ल्यू एन श्रीराम (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 79979डब्ल्यू सौरभ मिश्र (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79978एन कवि प्रतीक नायारण (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 79994एल आदित्या काला (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79993एच कुमार गौरव (आर्टी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले० के पद पर दिनांक 14 जून 2014 से)

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 134 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 14 जून 2014 से स्थायी रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 79319वाई पारीरख भट्टा (इंजीनियर्स) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79318डब्ल्यू राहुल शर्मा (इंजीनियर्स) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले० के पद पर दिनांक 14 दिसम्बर 2013 से)

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 133 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 14 दिसम्बर 2013 से स्थायी रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 78723एफ अजय पाठक (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 78722वाई शांतनू कौशिक (एएडी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले० के पद पर दिनांक 08 जून 2013 से)

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 132 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 08 जून 2013 से स्थायी रूप से विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 77871ए आदित्य जैन (एएडी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 77870एक्स अभिषेक सिंह (आर्टी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित 13 (तेरह) जैण्टलमैन कैडेट्स (जी सी) जो कि 118 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टी जी सी) उपसर्ग लगे हुए हैं को 13 दिसम्बर 2014 (पूर्वाहन) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी आयोग अनुदान किया जाता है तथा इनको 15 दिसम्बर 2013 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है। निम्नलिखित 01 (एक) अधिकारी टी/7598 प्रियंक मलिक (आई सी 80171 एक्स) को भी सेना अनुदेश 105/61 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत ले0 के पद पर 13 दिसम्बर 2014 (पूर्वाहन) से स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है तथा इन्हें एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए नहीं दी जाती है।

टी/7626 प्रीत राज कोथूरी (आई सी 80125 एच) इंजिनियर्स की वरीयता टी/7596 सुमीत सोढ़ी (आई सी 80124 ए) मैक इन्फैन्ट्री के नीचे, टी/7611 रोहित कुमार झा (आई सी 80128 डब्ल्यू) आर्टी की वरीयता टी/7601 आनन्द श्रीकुमार सी (आई सी 80127 एन) इंजिनियर्स के नीचे, टी/7616 आदित्य दुबे (आई सी 80133 एफ) सिगनल्स की वरीयता टी/7606 अभिषेक ठाकुर (आई सी 80132 वाई) ईएमई के नीचे, टी/7572 नीरज शुक्ला (आई सी 80138ए) ईएमई की वरीयता टी/7614 अभिषेक मिश्रा (आई सी 80137 एक्स) सिगनल्स के नीचे, टी/7571 रोहित शर्मा (आई सी 80140 एक्स) इन्फैन्ट्री की वरीयता टी/7631 कुनाल कपूर (आई सी 80139एच) इंजिनियर्स के नीचे, टी/7586 जतिंदर सिंह (आई सी 80141 ए) इंजिनियर्स की वरीयता टी/7631 कुनाल कपूर (आई सी 80139एच) इंजिनियर्स के नीचे तथा टी/7604 भार्गव पी बेले (आई सी 80144 एन) एएडी के उपर, टी/7481 आशिष कुमार सिंह (आई सी 80143 एल) ईएमई की वरीयता टी/7604 भार्गव पी बेले (आई सी 80144 एन) एएडी के उपर, टी/7609 सुनील कुमार (आई सी 80145 डब्ल्यू) सिगनल्स की वरीयता टी/7604 भार्गव पी बेले (आई सी 80144 एन) एएडी के नीचे, टी/7607 अंकुश अरोड़ा (आई सी 80151 के) आर्टी की वरीयता टी/7597 निखिल डे (आई सी 80150एफ) सिगनल्स के नीचे, टी/7630 मनुमय बिष्ट (आई सी 80157 एल) इंजिनियर्स की वरीयता यू/1323 अभिषेक चतुर्वेदी (आई सी 80156एच) ईएमई के नीचे, टी/7595 गुरप्रीत सिंह सूदन (आई सी 80161 एन) इंजिनियर्स की वरीयता टी/7576 लक्ष्य सैनी (आई सी 80160 एल) इंजिनियर्स के नीचे, टी/7598 प्रियंक मलिक (आई सी 80171 एक्स) एईसी की वरीयता टी/7627 मो नुरुज्जमन (आई सी 80172 ए) इंजिनियर्स के उपर, टी/7622 अभिजीत चक्रवर्ती (आई सी 80175 एन) एओसी की वरीयता टी/7525 पी दिपिन नायर (आई सी 80174 एल) ईएमई के नीचे जिनके नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

निम्नलिखित 01 (एक) जैण्टलमैन कैडेट (जी सी) जो कि 113 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टी जी सी) उपसर्ग लगे हुए हैं को 09 जून 2012 (पूर्वाहन) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वाले को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी आयोग अनुदान किया जाता है तथा इनको 12 जून 2011 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वाले को एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है।

टी/7074 प्रदीप सिंह (आई सी 76960 एम) इंजिनियर्स की वरीयता यू/1136 अर्शदीप सिंह सोढ़ी (आई सी 76959 एक्स) सिगनल्स के नीचे, जिनका नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है।

निम्नलिखित 13 (तेरह) जैण्टलमैन कैडेट्स (जी सी) जो कि 117 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) तथा 22 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं तथा जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टी जी सी) एवं यू (प्रदर्शित यू ई एस) उपसर्ग लगे हुए हैं को 14 जून 2014 (पूर्वाहन) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को तथा सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वाले को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी आयोग अनुदान किया जाता है, तथा इनको 14 जून 2013 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को तथा सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों का एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है।

टी/7545 अनुज कुमार (आई सी 79401 एन) इन्फैन्ट्री की वरीयता टी/7519 अंकुर (आई सी 79400 एल) एसी के नीचे, यू/1277 शारंग जैन (आई सी 79411 एक्स) सिगनल्स की वरीयता टी/7555 मुकेश यादव (आई सी 79410पी) इन्फैन्ट्री के नीचे, टी/7546 अनिल कुमार यादव (आई सी 79414 एल) इन्फैन्ट्री की वरीयता यू/1303 अमनदीप सिंह (आई सी 79413एच) इंजिनियर्स के नीचे, यू/1317 कमल सिंह (आई सी 79427 एच) इन्फैन्ट्री की वरीयता यू/1281 आकर्षण भट्ट (आई सी 79426ए) इंजिनियर्स के नीचे, यू/1269 अभीलाष कुमार पाठक (आई सी 79431 एल) इन्फैन्ट्री की वरीयता टी/7522 पि नरेश गौड़ (आई सी 79430एच) एओसी के नीचे, टी/7468 चेतन सिंह जादौन (आई सी 79438 पी) इंजिनियर्स की वरीयता यू/1265 निखिल भट्ट (आई सी 79437एम) इन्फैन्ट्री के नीचे, टी/7470 अब्दुल कादिर खान (आई सी 79448 वाई) सिगनल्स की वरीयता टी/7531 साहिल शर्मा (आई सी 79447 डब्ल्यू) सिगनल्स के नीचे, यू/1325 आशीष नारायण दुबे (आई सी 79455 पी) आर्टी की वरीयता टी/7498 गुरु मर्ति एस (आई सी 79454 एम) एविएशन के नीचे, टी/7503 आदित्य शंकर (आई सी 79457 ए) एएडी की वरीयता टी/7527 शिवानंद पाटिल (आई सी 79456 एक्स) सिगनल्स के नीचे, टी/7486 मुदित (आई सी 79478 डब्ल्यू) ईएमई की वरीयता यू/1292 विनीत शर्मा (आई सी 79477 एन) सिगनल्स के नीचे, यू/1283 रोबीन बरन मुखोपाध्याय (आई सी 79524 ए) एओसी की

वरीयता यू/1268 अनुराग कौशल (आई सी 79523 एक्स) ईएमई के नीचे, यू/1291 शैविक सरकार (आई सी 79537 एक्स) ईएमई की वरीयता यू/1259 मौ अरहम (आई सी 79536 पी) आर्टी के नीचे, टी/7541 सर्वेश कुमार पन्थी (आई सी 79565 के) ईएमई की वरीयता टी/7562 मारीया चॉर्लस आई (आई सी 79566 एम) आर्टी के ऊपर जिनके नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित 13 (तेरह) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 117 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) पाठ्यक्रम के तथा 22 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को तथा सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है।

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्म / सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
117 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम				
टी/7468	चेतन सिंह जादौन	47373 वाई	ईएमई	15 जुलाई 13
टी/7470	अब्दुल कादीर खान	47375 के	सिगनल्स	15 जुलाई 13
टी/7486	मुदित	47391 एफ	इंजिनियर्स	15 जुलाई 13
टी/7503	आदित्य शेंकर	47408 के	ईएमई	15 जुलाई 13
टी/7541	सर्वेश कुमार पन्थी	47445 एक्स	सिगनल्स	15 जुलाई 13
टी/7545	अनुज कुमार	47449 एन	सिगनल्स	15 जुलाई 13
टी/7546	अनिल कुमार यादव	47450 एच	ईएमई	15 जुलाई 13
22 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम				
यू/1269	अभीलाष कुमार पाठक	47485 वाई	ईएमई	01 जुलाई 12
यू/1277	शारंग जैन	47493 एक्स	ईएमई	01 जुलाई 12
यू/1283	रोबीन बरन मुखोपाध्याय	47499 वाई	एएससी	01 जुलाई 12
यू/1291	शैविक सरकार	47507 एम	ईएमई	01 जुलाई 12
यू/1317	कमल सिंह	47533 एन	सिगनल्स	01 जुलाई 12
यू/1325	आशीष नारायण दुबे	47541 एम	सिगनल्स	01 जुलाई 12

जैण्टलमैन कैडेट को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

निम्नलिखित 01 (एक) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 113 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वाले को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है।

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्म्स / सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
113 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम				
टी/7074	प्रदीप सिंह	45585 एल	इंजिनियर्स	13 जुलाई 11

जैण्टलमैन कैडेट को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

निम्नलिखित 01 (एक) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 117 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :-

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्म्स/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
117 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम				
टी/7481	आशीष कुमार सिंह	47386 डब्ल्यू	ईएमई	15 जुलाई 13

जैण्टलमैन कैडेट को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य हैं।

निम्नलिखित 11 (ग्यारह) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 118 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :-

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्म्स/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
118 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम				
टी/7571	रोहित शर्मा	47769 एच	सिगनल्स	14 जनवरी 14
टी/7572	नीरज शुक्ल	47770 एक्स	इंजिनियर्स	14 जनवरी 14
टी/7586	जतिंदर सिंह	47783 पी	ईएमई	14 जनवरी 14
टी/7595	गुरप्रीत सिंह सूदन	47792 डब्ल्यू	इंजिनियर्स	14 जनवरी 14
टी/7607	अंकुश अरोड़ा	47803 एक्स	ईएमई	14 जनवरी 14
टी/7609	सुनिल कुमार	47804 ए	सिगनल्स	14 जनवरी 14
टी/7611	रोहित कुमार झा	47806 एल	सिगनल्स	14 जनवरी 14
टी/7616	आदित्य दुबे	47811 डब्ल्यू	सिगनल्स	14 जनवरी 14
टी/7622	अभिजीत चक्रवर्ती	47817 एक्स	एओसी	14 जनवरी 14
टी/7626	प्रीत राज कोथुरी	47821 ए	इंजिनियर्स	21 जनवरी 14
टी/7630	मनुमय बिष्ट	47825 डब्ल्यू	ईएमई	03 फरवरी 14

जैण्टलमैन कैडेट को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य हैं।

अभिषेक तिवारी
मेजर
ए एम एस 8 बी

सेना शाखा

सं. 186, दिनांक 4 अगस्त 2016—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित सहर्ष पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

स्थाई आयोग

ले0 कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

वैयक्तिक नं0	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
आई सी 58712	एम चौहान	एसी	10/03/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

वैयक्तिक नं०	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
आई सी 58874	सी एस आड्या	एसी	26/03/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59149	रजत शर्मा	एसी	11/04/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59302	जयंत सिंह	एसी	18/03/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 58654	विश्वजीत दैस	मैक इन्फैन्ट्री	01/02/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 58669	ए एस राठौर	मैक इन्फैन्ट्री	01/02/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 56195	एम ए पी कुमार	इन्फैन्ट्री	29/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 56321	कृष्णदास टी आर	इन्फैन्ट्री	26/10/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 56405	अखिल मेंधे	इन्फैन्ट्री	22/02/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59684	सुदीप माजी, एस एम	इन्फैन्ट्री	09/10/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59719	पुनीत शर्मा	इन्फैन्ट्री	10/06/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59825	रजत त्यागी	इन्फैन्ट्री	30/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59838	चिन्माया वर्मा	इन्फैन्ट्री	15/03/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59846	सौरव सी	इन्फैन्ट्री	05/01/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59855	संदीप आजाद, एस सी	इन्फैन्ट्री	15/01/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59908	अनुराग शर्मा	इन्फैन्ट्री	22/02/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 64828	ए पी सिंह	इन्फैन्ट्री	16/02/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 64862	विक्रम, एस एम	इन्फैन्ट्री	04/11/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 64870	ए भागी	इन्फैन्ट्री	04/09/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 64902	ए के सिंह	इन्फैन्ट्री	22/03/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60096	वी कॅवर	इन्फैन्ट्री	09/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60121	शिंदे वी एस	इन्फैन्ट्री	09/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

वैयक्तिक नं०	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
आई सी 60141	मुकुंद एम जी, एस एम	इन्फैन्ट्री	09/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60143	के एम एन कुटप्पा	इन्फैन्ट्री	29/03/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60169	एस राठी	इन्फैन्ट्री	04/04/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60179	आर जे राने	इन्फैन्ट्री	09/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60191	इंदरजीत सिंह	इन्फैन्ट्री	22/02/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60213	हरी प्रसाद	इन्फैन्ट्री	14/03/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60231	आर कौशिक, एस एम	इन्फैन्ट्री	09/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60233	शारंग पुन	इन्फैन्ट्री	20/02/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60239	ए मुखर्जी	इन्फैन्ट्री	09/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60253	के नौरियाल	इन्फैन्ट्री	11/04/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60260	एस गोविल	इन्फैन्ट्री	23/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60323	ए सिंह, एस एम	इन्फैन्ट्री	09/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60330	एम तनेजा	इन्फैन्ट्री	09/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60339	ए पी कांडवाल	इन्फैन्ट्री	14/03/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60351	जे एस गिल	इन्फैन्ट्री	09/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60369	पनवार एच, एस सी	इन्फैन्ट्री	09/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60386	एम सिंह	इन्फैन्ट्री	09/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60427	पी कार	इन्फैन्ट्री	09/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60442	वी के शेवरान	इन्फैन्ट्री	09/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60446	एन एस मान, एस एम	इन्फैन्ट्री	14/01/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60453	हरीश आर	इन्फैन्ट्री	09/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

वैयक्तिक नं०	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
आई सी 60501	कटारिया भाष्कर	इन्फैन्ट्री	09/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 08/05/2015 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57343	एस सिंह	ए ओ सी	01/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 56313	पाई जी एन	ईएमई	01/09/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57258	एस आर एच सिंह	ईएमई	01/08/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57353	ए के बाल्यान	ईएमई	01/09/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57368	एम एस भाऊ, एस एम	ईएमई	01/09/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57374	वी जोशी	ईएमई	01/09/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57395	ए जोशी	ईएमई	01/09/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57436	सी कपूर	ईएमई	01/09/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57458	ए भारद्वाज	ईएमई	01/09/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57476	एन नवीन	ईएमई	01/09/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57483	के ओबेराय	ईएमई	01/09/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57485	एम खन्ना	ईएमई	01/09/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57489	एन के बहल	ईएमई	01/09/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57499	अविनाश शर्मा	ईएमई	01/09/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57511	एस एस चौहान	ईएमई	01/09/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57520	एन एम कुरिआकोसे	ईएमई	01/09/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57544	एम देवांगन	ईएमई	01/09/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57601	एम गुलिया	ईएमई	01/09/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 58938	विकास पाण्डेय	ईएमई	01/08/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 58940	सचिन कालिया	ईएमई	01/08/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 58949	एस के नायर	ईएमई	01/08/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

वैयक्तिक नं०	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
आई सी 58950	एस कुमार	ईएमई	01/08/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 58994	एच एस सिद्धू	ईएमई	01/08/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 58996	सज्जन सिंह	ईएमई	01/08/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 58998	राजिंदर एस एस	ईएमई	01/08/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59018	मृत्युंजय के	ईएमई	18/11/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59025	जी सिंह	ईएमई	01/08/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59544	रोहित शर्मा	ईएमई	01/09/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
एस एल 04152	राम निवास	एस एल आर ओ	01/10/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 31/12/2010 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 55350	आर एस यादव	एसी	14/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21/07/2011 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 58630	शोविक सेन	आर्टी	14/03/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59089	आशीष ए जे	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59136	पी एस कर्की	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 59432	राकेश के, एस एम	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 58342	दिवाकर सिंह	सिगनल्स	01/11/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04/03/2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 58399	ए श्रीवास्तव	सिगनल्स	01/11/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04/03/2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 58401	एस के चक्रवर्ती	सिगनल्स	01/11/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04/03/2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 60084	अजय के एस	सिगनल्स	07/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04/03/2013 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57387	आर यादवा	एओसी	01/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आई सी 57431	एच कुमार	एओसी	01/02/2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 24/04/2012 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
एस एल 04106	एस एस गिल	एस एल क्यू एम	01/12/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01/06/2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।
आईसी 57777	अदिवतिया कथूरिया	आर्टी	13/06/15 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04/03/2013
आईसी 47578	वी एस चंद्रावत, एस एम	इन्फैन्ट्री	11/06/2008 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 10/01/2008 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

स्थायी आयोग
ले0कर्मल से कर्मल (समय मान द्वारा) के मूल रैंक में

आई सी सं	नाम	आर्म	सबसटेंटिब तिथि
40193एन	एस डी सावंत	आर्टी	19 दिसम्बर 2007
43096एफ	आई जे एस चावला	आर्टी	08 जून 2011
44673पी	ए के शर्मा	इन्फैन्ट्री	13 जून 2013
45568एल	एम रॉबर्ट्स	इन्फैन्ट्री	22 अप्रैल 2012
46207वाई	आर एस राठौर	इंजीनियर्स	18 अप्रैल 2015
46350एल	एस एच कुरेशी	ए सी	09 नवम्बर 2015
47687ए	अजय बोहटन	ई एम ई	11 जून 2014
48202 वाई	डी के शर्मा	इन्फैन्ट्री	17 दिसम्बर 2014
49077 एम	गजेन्द्र सिंह	आर्टी	16 दिसम्बर 2015
41640वाई	के के मिश्रा	इन्फैन्ट्री	17 दिसम्बर 2009
46307के	आर शेखावत	सिगनल्स	18 अप्रैल 2016
46404एफ	वी जे फिलिप	ए एस सी	09 नवम्बर 2015
46434वाई	राजीव कुमार सिंह	ए सी	24 अप्रैल 2016
46435एफ	ब्रजेश कैले	इन्फैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46446एन	के एस मंता	इन्फैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46447डब्ल्यू	के एस गिल	इन्फैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46449एफ	मोहित लामा	इन्फैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46451वाई	एस दत्ता	इन्फैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46452एफ	आर श्रीनिवासन	आर्टी	24 अप्रैल 2016
46454एम	हरदीप जोहर	इन्फैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46489एच	जीवन सिंह	सिगनल्स	24 अप्रैल 2016
46491ए	एच आर सुनील	ए एस सी	24 अप्रैल 2016
46496वाई	विरिन्दर सिंह	आर्टी	24 अप्रैल 2016
46505पी	रघुराज सिंह	इन्फैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46516एफ	रनधीर सिंह	ए एस सी	24 अप्रैल 2016
46518एम	आदित्य शर्मा	इंजीनियर्स	24 अप्रैल 2016
46520के	जी एस चाब्बा	ए सी	24 अप्रैल 2016
46522पी	एस कक्कर	ई एम ई	24 अप्रैल 2016
46525एच	रमन दुगल्ल	इंजीनियर्स	24 अप्रैल 2016
46529वाई	एम एस देओपा	इन्फैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46533एफ	डी एस खांगरोट	इन्फैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46535एम	जे जे प्रिंस	सिगनल्स	24 अप्रैल 2016
46536पी	डी के मानिक	ई एम ई	24 अप्रैल 2016
46537एक्स	के पी आर सिंह	इन्फैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46548के	बी जी आर राव	आर्टी	24 अप्रैल 2016

आई सी सं	नाम	आर्म	सबसटेंटिब तिथि
46551के	राजेश गुप्ता	इंजीनियर्स	24 अप्रैल 2016
46554एक्स	आर सी जैन	जैग	24 अप्रैल 2016
46555ए	ए के जैन	इंजीनियर्स	24 अप्रैल 2016
46558एन	एच टुकराल	आर्टी	24 अप्रैल 2016
48396एम	रबी मुखर्जी	आर्टी	17 दिसम्बर 2014
49089एफ	एस दहिया	इन्फैन्ट्री	16 दिसम्बर 2015
49140डब्ल्यू	जी एस धालीवाल	इन्फैन्ट्री	16 दिसम्बर 2015
49336के	भट्ट संजय	ए ओ सी	16 दिसम्बर 2015
51093एच	एन के बैराठी	इंजीनियर्स	17 दिसम्बर 2015
46339एम	डी तंवर	इन्फैन्ट्री	09 नवम्बर 2015
46450डब्ल्यू	अजीत कुमार दास	सिगनल्स	24 अप्रैल 2016
46457ए	विजय असवाल	इन्फैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46508एच	बलबीर सिंह	ए एस सी	24 अप्रैल 2016
46509एल	टी ए मलिक	इन्फैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46513एन	वाई अहलावट	गार्ड्स मैक	24 अप्रैल 2016
46532वाय	यू एस कुशवाहा	इन्फैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46556एच	दामोदर हरिदास	ई एम ई	24 अप्रैल 2016
49042डब्ल्यू	एस के ए तिवारी	इन्फैन्ट्री	16 दिसम्बर 2015
46399एफ	जितेन्द्र सिंह	ई एम ई	09 नवम्बर 2015
46402डब्ल्यू	राजेश नेगी	सिगनल्स	09 नवम्बर 2015
46465वाई	एम सिंह	आर्टी	24 अप्रैल 2016
46483एफ	ए ए मैथ्यूज	इन्फैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46492एच	सुरेश मलिक	इन्फैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46497एफ	वी गुप्ता	ए सी	24 अप्रैल 2016
46500डब्ल्यू	वी थपलियाल	इन्फैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46503के	पी एस कुमार	ई एम ई	24 अप्रैल 2016
46512एल	आर शर्मा	इन्फैन्ट्री	24 अप्रैल 2016
46514डब्ल्यू	ए गुलिआ	आर्टी	24 अप्रैल 2016
46515वाई	अनुपिन्दर सिंह	आर्टी	24 अप्रैल 2016
46542एच	एन एम ईरानी	ए सी	24 अप्रैल 2016
46546वाई	ए सी धाबे	ई एम ई	24 अप्रैल 2016
47441एफ	बी एस चौहान	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
48511एफ	ए के शिओरान	मैक इन्फैन्ट्री	10 जून 2015
48746एन	वी पी सिंह	इन्फैन्ट्री	10 जून 2015
51107एक्स	डी एस डी तिवारी	इंजीनियर्स	17 दिसम्बर 2015

नवीन कुमार
उप निदेशक
एम एस 8ए

सेना शाखा

सं. 187, दिनांक 5 अगस्त 2016—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारी को सहर्ष पदोन्नत करते हैं

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ले. से कप्तान

52199	जहीर अहमद खान	इन्फैन्ट्री
-------	---------------	-------------

—12 जून 1998—

2 ले. से ले.

52199	जहीर अहमद खान	इन्फैन्ट्री
-------	---------------	-------------

—12 जून 1995—

एस एन मिश्रा

ले0 कर्नल

ए एम एस 8वी

वायु शाखा

सं. 188, दिनांक 8 अगस्त 2016—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों की स्थायी पदोन्नति करते हैं :-

भारतीय वायु सेना

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के स्थायी रैंक में

एफ (पी) शाखा

सक्सेना अंशुल	(26118)	17 जून 13 से प्रभावी
बंदारू जगदीप	(26115)	17 जून 13 से प्रभावी
बोपन्ना एम एम	(26092)	17 जून 13 से प्रभावी
राव करकला उदयचन्द्र	(26097)	17 जून 13 से प्रभावी
वल्लुपरमबिल राजन राकेश	(26101)	17 जून 13 से प्रभावी
नितिन सुब्रमण्यम	(26120)	17 जून 13 से प्रभावी
सोढ़ी रणप्रीत सिंह	(26082)	17 जून 13 से प्रभावी
सिंह अनिल प्रताप	(26086)	17 जून 13 से प्रभावी
श्रीवास्तव निषीध	(26089)	17 जून 13 से प्रभावी
अलियापरमबिल बाबू प्रजीत बाबू	(26104)	17 जून 13 से प्रभावी
शेल्के विजय कुमार तुकाराम	(26108)	17 जून 13 से प्रभावी
पुरी अंशु	(26114)	17 जून 13 से प्रभावी
सेक्यूडरा हंसल जोसफ	(26081)	17 जून 13 से प्रभावी
चौहान गौरव बी एस	(26106)	17 जून 13 से प्रभावी
मंदीप चहल	(26084)	17 जून 13 से प्रभावी
गर्ग सुमित	(26085)	17 जून 13 से प्रभावी

गुप्ता क्षितिज	(26087)	17 जून 13 से प्रभावी
रस्तोगी अभिजीत	(26088)	17 जून 13 से प्रभावी
पटेल जसवंत	(26094)	17 जून 13 से प्रभावी
पवार सतीश	(26096)	17 जून 13 से प्रभावी
महाजन अमित	(26099)	17 जून 13 से प्रभावी
खोलिया गौरव	(26103)	17 जून 13 से प्रभावी
सूद अंकित	(26107)	17 जून 13 से प्रभावी
सिंह श्रेयांस कुमार	(26110)	17 जून 13 से प्रभावी
महाजन अभिनव	(26113)	17 जून 13 से प्रभावी
पॉल शिशु	(26117)	17 जून 13 से प्रभावी
सूरज कुमार	(26119)	17 जून 13 से प्रभावी
बनर्जी संदीप	(26091)	17 जून 13 से प्रभावी
यादव सौरभ सिंह	(26098)	17 जून 13 से प्रभावी
सांगवान अमित कुमार	(26100)	17 जून 13 से प्रभावी
नायक जितिन हरि	(26105)	17 जून 13 से प्रभावी
सिंह चिरंजीव	(26109)	17 जून 13 से प्रभावी
साह गीतेश कुमार	(26111)	17 जून 13 से प्रभावी
सिसोदिया प्रणव	(26112)	17 जून 13 से प्रभावी

एफ (एन) शाखा

झा अभिषेक	(26121)	17 जून 13 से प्रभावी
ओझा दिनेश कुमार	(26122)	17 जून 13 से प्रभावी
भारद्वाज राकेश रोशन	(26129)	17 जून 13 से प्रभावी
अमरुजकर शैलेश	(26130)	17 जून 13 से प्रभावी
लकरा मोसेज	(26128)	17 जून 13 से प्रभावी
गंगयूला पवन कुमार	(26124)	17 जून 13 से प्रभावी
राठौर विमलजीत सिंह	(26131)	17 जून 13 से प्रभावी
पान्डा देवीदत्त	(26127)	17 जून 13 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

सिंह वेद प्रकाश (26116), 26 जून 2013 से प्रभावी
(नोशनल सिनियोरटी दिनांक 17 जून 2013 से प्रभावी)

प्रशासनिक शाखा

लतिका बोल्करन्दा मदैया	(26172)	17 जून 13 से प्रभावी
डी'सिल्वा रोशेल सेसेलिया	(26175)	17 जून 13 से प्रभावी

लेखा शाखा

राजर्स अर्चना	(26180)	17 जून 13 से प्रभावी
मिश्रा पुष्पा	(26177)	17 जून 13 से प्रभावी

प्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के स्थायी रैंक में
प्रशासनिक शाखा

सुनोज अनकरत सुब्रन	(29535)	16 जून 13 से प्रभावी
सिन्हा प्रभाकर	(29521)	16 जून 13 से प्रभावी
सज्जा श्री चैतन्या	(29532)	16 जून 13 से प्रभावी
दास संदीप	(29533)	16 जून 13 से प्रभावी
रेड्डी वाई श्रीधर	(29531)	16 जून 13 से प्रभावी
कुमार मनोज	(29530)	16 जून 13 से प्रभावी
अन्नियत सतीआनंदन	(29529)	16 जून 13 से प्रभावी
लोहक्का दीपक	(29528)	16 जून 13 से प्रभावी
सांगवान दिनेश कुमार	(29527)	16 जून 13 से प्रभावी
मिश्रा अरूण कुमार	(29525)	16 जून 13 से प्रभावी
डोगरा अजय सिंह	(29542)	16 जून 13 से प्रभावी
चतुर्वेदी अंशुल	(29541)	16 जून 13 से प्रभावी
झा अमित कुमार	(29540)	16 जून 13 से प्रभावी
रे कृष्ण मोहन	(29539)	16 जून 13 से प्रभावी
रामचंद्रन दीपेश कोसेरी	(29538)	16 जून 13 से प्रभावी
चहल सुखचरण सिंह	(29537)	16 जून 13 से प्रभावी
लखावत सुमित	(29536)	16 जून 13 से प्रभावी
मिश्रा शशांक शंकर	(29523)	16 जून 13 से प्रभावी
दत्ता सुवोजित	(29522)	16 जून 13 से प्रभावी
कांत सचिन चंदर	(29534)	16 जून 13 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

शर्मा अजातशत्रु	(29548)	16 जून 13 से प्रभावी
कौरा दिव्य दीप	(29547)	16 जून 13 से प्रभावी
सिन्हा राजीव रंजन कुमार	(29545)	16 जून 13 से प्रभावी
गोंडकर चेतन रमेश	(29544)	16 जून 13 से प्रभावी
गुनीशेट्टी हरि प्रसाद	(29543)	16 जून 13 से प्रभावी
महापात्रा दीपक कुमार	(29546)	16 जून 13 से प्रभावी

लेखा शाखा

तिवारी आशीष मोहन	(29550)	16 जून 13 से प्रभावी
कार्डोसो फ्रांसिस	(29549)	16 जून 13 से प्रभावी
वोहरा सागर	(29554)	16 जून 13 से प्रभावी
रजौर कुशाग्र	(29553)	16 जून 13 से प्रभावी
सिंह राजवीर	(29552)	16 जून 13 से प्रभावी
सिंह निमरित प्रीत	(29551)	16 जून 13 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

नायर वी कृष्ण कुमार	(29556)	16 जून 13 से प्रभावी
राजाराम जोशी	(29555)	16 जून 13 से प्रभावी

कुमार संजय	(29559)	16 जून 13 से प्रभावी
शर्मा विपिन कुमार	(29558)	16 जून 13 से प्रभावी
रेड्डी कलवाला जगन मोहन	(29557)	16 जून 13 से प्रभावी
कुमार रंजीत	(29565)	16 जून 13 से प्रभावी
सिजोमन करीमकुट्टीकुलम वरके	(29564)	16 जून 13 से प्रभावी
मुरुकेशन प्रेम कुमार	(29563)	16 जून 13 से प्रभावी
मुरलीधरन अच्युतन	(29562)	16 जून 13 से प्रभावी
सुमेश टी के	(29561)	16 जून 13 से प्रभावी
शर्मा कमल कांत	(29560)	16 जून 13 से प्रभावी
मौसम विज्ञान शाखा		
दास सुदीप	(29566)	16 जून 13 से प्रभावी
अनिल	(29171)	16 जून 13 से प्रभावी
प्रशासनिक शाखा		
सिंह हरेन्द्र कुमार	(29567)	01 जुलाई 13 से प्रभावी
सुरेश चलुवदी वेंकट	(29601)	16 जुलाई 13 से प्रभावी
ए ई (एल) शाखा		
सुमति चन्द्र (29864),		07 जनवरी 14 से प्रभावी
गुप्ता नेहा (29865),		07 जनवरी 14 से प्रभावी
कौर परमिन्दर (29866),		07 जनवरी 14 से प्रभावी
सुजाता (29867),		07 जनवरी 14 से प्रभावी
भूमिका आनंद (29868),		07 जनवरी 14 से प्रभावी
तंवर शीतल (29863),		07 जनवरी 14 से प्रभावी
आहुजा मनीष (29857),		07 जनवरी 14 से प्रभावी
सिंह अरुण कुमार (29858),		07 जनवरी 14 से प्रभावी
सपना जनार्दन (29859),		07 जनवरी 14 से प्रभावी
नायक रितु (29860),		07 जनवरी 14 से प्रभावी
शर्मा नविदता (29862),		07 जनवरी 14 से प्रभावी
शर्मा चारु (29861),		07 जनवरी 14 से प्रभावी
प्रशासनिक शाखा		
स्वामी तिरुनागरी नरसिम्हा (29751),		16 दिसंबर 13 से प्रभावी
कुमार आर अरुण (29753),		16 दिसंबर 13 से प्रभावी
धंकर विजय कुमार (29750),		16 दिसंबर 13 से प्रभावी
संभारिकी शाखा		
शर्मा मुकुंद (29760)		16 दिसंबर 13 से प्रभावी
सिंह संदीप प्रेम (29756)		16 दिसंबर 13 से प्रभावी
कंदला प्रवीण (29754)		16 दिसंबर 13 से प्रभावी
चक्रवर्ती बापुन (29755)		16 दिसंबर 13 से प्रभावी
कुमार राकेश (29759)		16 दिसंबर 13 से प्रभावी
रावत ए एस (29758),		16 दिसंबर 13 से प्रभावी
भोसले तेजसिंह विजयराव (29757,		16 दिसंबर 13 से प्रभावी

लेखा शाखा		
सिंह सलिल (29761)		16 दिसंबर 13 से प्रभावी
शिक्षा शाखा		
राजकुमार एम (29764)		16 दिसंबर 13 से प्रभावी
चौहान गुरदीप सिंह (29765)		16 दिसंबर 13 से प्रभावी
गोस्वामी राजा (29766)		16 दिसंबर 13 से प्रभावी
पिल्लई किरण वेलप्पन (29767)		16 दिसंबर 13 से प्रभावी
सक्सेना राजीव (29768)		16 दिसंबर 13 से प्रभावी
सिंह भवानी (29769)		16 दिसंबर 13 से प्रभावी
मौसम विज्ञान शाखा		
सिंह सारुंगबम डैनी (29411)		16 दिसंबर 13 से प्रभावी
शर्मा राहुल (29412)		16 दिसंबर 13 से प्रभावी
ए ई (एल) शाखा		
जैन लवी (29842)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
ए ई (एम) शाखा		
श्री कृष्णा (30145)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
राय मुकेश (30060)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
सिंह महीप (30059)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
जोशी क्षितिज (30058)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
देसाई स्वप्निल (30057)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
पाल रमनदीप (30056)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
नौटियाल प्रवीण चन्द्र (30055)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
जोस इनबराज डी (30054)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
ए ई (एल) शाखा		
चन्द्र दीप (30380)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
शेखर शशांक (30381)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
गोखले अमित अशोक (30076)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
वट्टा अभिमन्यु (30077)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
सिंह आशुतोष (30078)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
सिंह पुनीत (30079)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
सलमान मोहम्मद अजमल (30080)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
लूथरा अभिषेक (30081)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
असथाना शिवांचल (30082)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
सिंह विक्रान्त (30083)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
सिंह अश्विनी कुमार (30084)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
राय निखिल (30085)		03 जुलाई 13 से प्रभावी
गोसाई अनुपम (30086)		03 जुलाई 13 से प्रभावी

भदे प्रवीण कुमार	(30087)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
सिंह अविनाश	(30088)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
कुमार प्रदीप	(30089)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
चन्द्र नितांशु	(30090)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
मुकर्जी प्रियांशु	(30091)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
जोशी उमेश	(30092)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
कुमार नितिन	(30093)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
कुलकर्णी अक्षय	(30094)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
साहू जितेन्द्र कुमार	(30095)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
अर्जुन वी	(30096)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
राय आशुतोष	(30097)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
रे ब्रजेश कुमार	(30062)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
सिंह जगबीर	(30063)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
प्रुस्ती संदीप कुमार	(30065)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
मित्रा संदीप	(30066)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
यादव शेखर	(30067)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
महल सिमरनजीत सिंह	(30068)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
सिंह शक्तियवेश नंदन प्रताप सिंह	(30069)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
गोस्वामी विवेक	(30070)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
समीर आनंद	(30071)	03 जुलाई 13 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

बिष्ट कामिया	(29580)	16 जून 13 से प्रभावी
मिश्रा अंजली	(29581)	16 जून 13 से प्रभावी
सोनकर दर्शना	(29582)	16 जून 13 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

गर्ग शिवा	(29584)	16 जून 13 से प्रभावी
-----------	---------	----------------------

लेखा शाखा

कामाक्षी विश्वनाथन पद्मजा	(29586)	16 जून 13 से प्रभावी
नेगी राजरत्न	(29587)	16 जून 13 से प्रभावी
सिंह तनु	(29588)	16 जून 13 से प्रभावी
राणा नेहा	(29589)	16 जून 13 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

फातिमा नसरीन	(29595)	16 जून 13 से प्रभावी
कुसुम	(29596)	16 जून 13 से प्रभावी
गुलिया चेतना	(29590)	16 जून 13 से प्रभावी
रीना	(29591)	16 जून 13 से प्रभावी
सुचेता	(29592)	16 जून 13 से प्रभावी

कुमारी कल्पना	(29593)	16 जून 13 से प्रभावी
चित्रे सुप्रिया सुनील	(29594)	16 जून 13 से प्रभावी
मौसम विज्ञान शाखा		
वत्स भारती	(29173)	16 जून 13 से प्रभावी
कदम अश्विनी भरत	(29172)	16 जून 13 से प्रभावी
लेखा शाखा		
मिश्रा अपेक्षा	(29585)	06 सितंबर 13 से प्रभावी
प्रशासनिक शाखा		
महाजन सुमित	(29578)	16 जून 13 से प्रभावी
लेखा शाखा		
अनीश टी आर	(29579)	16 जून 13 से प्रभावी
ए ई (एम) शाखा		
यादव इंदु	(29655)	02 जुलाई 13 से प्रभावी
ए ई (एल) शाखा		
जोहरी शोभित	(29654)	02 जुलाई 13 से प्रभावी
शर्मा कंचन	(29656)	02 जुलाई 13 से प्रभावी
राय अर्चना सुभाष	(29658)	02 जुलाई 13 से प्रभावी
तम्बे प्रज्ञा	(29659)	02 जुलाई 13 से प्रभावी
गुप्ता खुशबू	(29660)	02 जुलाई 13 से प्रभावी
अर्चना एस	(29663)	02 जुलाई 13 से प्रभावी
दुबे दीप्ति	(29664)	02 जुलाई 13 से प्रभावी
सिंह तुलिका	(29665)	02 जुलाई 13 से प्रभावी
खरे सुवासिता	(29666)	02 जुलाई 13 से प्रभावी
चौहान भावना	(29667)	02 जुलाई 13 से प्रभावी
शादंगी प्रियंका	(29668)	02 जुलाई 13 से प्रभावी
कुमार रजित	(29653)	02 जुलाई 13 से प्रभावी
मुअल्लिम मोहम्मद अरकम	(29613)	02 जुलाई 13 से प्रभावी
इस्माइल मोहम्मद	(29637)	02 जुलाई 13 से प्रभावी
गोवर्धन निशा	(29669)	08 जुलाई 13 से प्रभावी
कौशल कुणाल	(30072)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
बजाज साहिल	(30073)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
आडवाणी अखिल	(30074)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
राजपूत ललित	(30075)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
सक्सेना राहुल	(30154)	03 जुलाई 13 से प्रभावी

यादव रविन्दर कुमार	(30146)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
ठाकुर मोहनीश	(30143)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
बक्शी मयंक	(30141)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
सौरभ पवन कुमार	(30140)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
बरथरे सचिन पाठक	(30100)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
सोनी अभिषेक	(30061)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
कुमार संतोष	(30098)	03 जुलाई 13 से प्रभावी
वालिया अश्विनी	(30099)	03 जुलाई 13 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

गुप्ता खुशबू	(29576)	16 जून 13 से प्रभावी
सुमति एम पी	(29575)	16 जून 13 से प्रभावी
विधाते अरुणिमा जीवन	(29577)	16 जून 13 से प्रभावी
जैन संदीप	(29439)	16 जून 13 से प्रभावी
गिल दीपक	(29440)	16 जून 13 से प्रभावी
कार्तिक सिधेश	(29441)	16 जून 13 से प्रभावी
बनर्जी रोहित	(29442)	16 जून 13 से प्रभावी
गोस्वामी नितिन	(29443)	16 जून 13 से प्रभावी
मनचंदा लोकेश	(29444)	16 जून 13 से प्रभावी
शिंदे सूरज	(29445)	16 जून 13 से प्रभावी
कुमार मुकेश	(29446)	16 जून 13 से प्रभावी
मनोहर अर्जुन	(29447)	16 जून 13 से प्रभावी
रंजन मृणाल	(29448)	16 जून 13 से प्रभावी
सहाय रौनक	(29450)	16 जून 13 से प्रभावी
महाले अक्षय अर्जुन	(29451)	16 जून 13 से प्रभावी
वैज नेविले	(29452)	16 जून 13 से प्रभावी
निरंजन निखिल	(29453)	16 जून 13 से प्रभावी
कुमार अंकुश	(29455)	16 जून 13 से प्रभावी
भारतेंदु कण्व	(29456)	16 जून 13 से प्रभावी
सूर्यवंशी चैतन्य	(29457)	16 जून 13 से प्रभावी
दलाई संतोष कुमार	(29458)	16 जून 13 से प्रभावी
सिंह शैलेन्द्र कुमार	(29459)	16 जून 13 से प्रभावी
जॉय जोमिस	(29460)	16 जून 13 से प्रभावी
सिंह जय	(29462)	16 जून 13 से प्रभावी
गोस्वामी विनीत	(29463)	16 जून 13 से प्रभावी

सेठ विक्रम	(29464)	16 जून 13 से प्रभावी
कुमार अनिल	(29465)	16 जून 13 से प्रभावी
कृष्णन एम अनूप	(29466)	16 जून 13 से प्रभावी
रहमान राशीकुर	(29497)	16 जून 13 से प्रभावी
कुमार अनिल	(29498)	16 जून 13 से प्रभावी
मिश्रा राहुल	(29500)	16 जून 13 से प्रभावी
कनजप्पन नवीन चंद कुट्टीपरमपतु	(29467)	16 जून 13 से प्रभावी
चौहान उत्तम कुमार	(29468)	16 जून 13 से प्रभावी
देवेसर शिवंकर	(29469)	16 जून 13 से प्रभावी
प्रधान सिद्धार्थ	(29471)	16 जून 13 से प्रभावी
भदोला आशुतोष	(29472)	16 जून 13 से प्रभावी
दैश	(29473)	16 जून 13 से प्रभावी
गुहा मानस कुमार	(29474)	16 जून 13 से प्रभावी
इनाला सम्राट	(29476)	16 जून 13 से प्रभावी
राज नितिन	(29477)	16 जून 13 से प्रभावी
ढींगरा दीपक	(29478)	16 जून 13 से प्रभावी
त्रिपाठी मनीष	(29479)	16 जून 13 से प्रभावी
गुप्ता अरिन्दम	(29480)	16 जून 13 से प्रभावी
अग्रवाल सुचित	(29516)	16 जून 13 से प्रभावी
मोयरंगजम हेरोजित सिंह	(29517)	16 जून 13 से प्रभावी
संखला अभिनव	(29490)	16 जून 13 से प्रभावी
लौंगिया बलराज सिंह	(29485)	16 जून 13 से प्रभावी
सिंह कुंवर निशांत	(29501)	16 जून 13 से प्रभावी
हर्ष माडली वेंकटा श्री	(29502)	16 जून 13 से प्रभावी
व्यास शोभित	(29503)	16 जून 13 से प्रभावी
देसाई मुदित विश्वेशभाई	(29504)	16 जून 13 से प्रभावी
कुकरेती मयंक	(29506)	16 जून 13 से प्रभावी
सिंह शैलेश	(29507)	16 जून 13 से प्रभावी
पार्थ बासु अविक	(29509)	16 जून 13 से प्रभावी
मंकु जगजीत सिंह	(29511)	16 जून 13 से प्रभावी
विकास तक्षक	(29512)	16 जून 13 से प्रभावी
बजाज गौतम	(29513)	16 जून 13 से प्रभावी
मुल्लापुडी श्रीराम नायडु	(29514)	16 जून 13 से प्रभावी
गौर अंकित कुमार	(29518)	16 जून 13 से प्रभावी
राठौर जयदीप सिंह	(29491)	16 जून 13 से प्रभावी
अहलावत चेतन	(29492)	16 जून 13 से प्रभावी
कुमार अंजन	(29493)	16 जून 13 से प्रभावी

राजेन्द्र एल नंदा	(29494)	16 जून 13 से प्रभावी
तिवारी निकेत	(29495)	16 जून 13 से प्रभावी
राठी अजित सिंह	(29496)	16 जून 13 से प्रभावी
चौहान दीपक	(29482)	16 जून 13 से प्रभावी
बुध्वर रोमित	(29483)	16 जून 13 से प्रभावी
सुब्रमण्यन उदयशंकर अरविंद	(29484)	16 जून 13 से प्रभावी
सिंह अनूप कुमार	(29486)	16 जून 13 से प्रभावी
चोपड़ा सिद्धार्थ	(29487)	16 जून 13 से प्रभावी
शर्मा मनोज	(29488)	16 जून 13 से प्रभावी

एफ (एन) शाखा

भारद्वाज श्री कांत	(29454)	16 जून 13 से प्रभावी
घोष सुरजीत	(29461)	16 जून 13 से प्रभावी
प्राचीत के	(29499)	16 जून 13 से प्रभावी
सेहरावत संदीप	(29475)	16 जून 13 से प्रभावी
आनंद मोहित	(29515)	16 जून 13 से प्रभावी
मानापट्टिल रतीश नारायणन	(29510)	16 जून 13 से प्रभावी
यादव विकास	(29519)	16 जून 13 से प्रभावी
मेसी सुमित	(29489)	16 जून 13 से प्रभावी
पंजियार राहुल कुमार	(29508)	16 जून 13 से प्रभावी

फ्लाईंग अफसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रैंक में

प्रशासनिक शाखा

बी एस राजा शेखर	(31813)	18 जून 13 से प्रभावी
-----------------	---------	----------------------

संभारिकी शाखा

गौरी संकर पाण्डे	(31814)	18 जून 13 से प्रभावी
------------------	---------	----------------------

शिक्षा शाखा

एस एन सिंह	(31815)	18 जून 13 से प्रभावी
------------	---------	----------------------

एफ (पी) शाखा

एस सरीन	(31747)	18 जून 13 से प्रभावी
ए बधवार	(31753)	18 जून 13 से प्रभावी
ए के दुबे	(31755)	18 जून 13 से प्रभावी
मुशताक अहमद	(31743)	18 जून 13 से प्रभावी
आर पाण्डे	(31793)	18 जून 13 से प्रभावी
ए शिवानंद	(31750)	18 जून 13 से प्रभावी
योगेश कंदपाल	(31790)	18 जून 13 से प्रभावी
एस सौरभ	(31780)	18 जून 13 से प्रभावी
एस जी वानखेड़े	(31751)	18 जून 13 से प्रभावी
एस जी झबरवाल	(31771)	18 जून 13 से प्रभावी

ए अस्थाना	(31785)	18 जून 13 से प्रभावी
एस एस शिंदे	(31752)	18 जून 13 से प्रभावी
पारितोष बंसल	(31774)	18 जून 13 से प्रभावी
पी यादव	(31744)	18 जून 13 से प्रभावी
राकेश रमन	(31772)	18 जून 13 से प्रभावी
पी बिजलवान	(31758)	18 जून 13 से प्रभावी
एस के तोमर	(31769)	18 जून 13 से प्रभावी
कुमार रणविजय	(31781)	18 जून 13 से प्रभावी
जे एस संधु	(31778)	18 जून 13 से प्रभावी
करन डुडगुंडी	(31799)	18 जून 13 से प्रभावी
एस ए राथेर	(31764)	18 जून 13 से प्रभावी
वी तिवारी	(31770)	18 जून 13 से प्रभावी
एन यादव	(31761)	18 जून 13 से प्रभावी
टी टंडन	(31788)	18 जून 13 से प्रभावी
दीपक सहगल	(31797)	18 जून 13 से प्रभावी
अल्बिन कुरियाकोसे	(31757)	18 जून 13 से प्रभावी
जे पी परिदा	(31795)	18 जून 13 से प्रभावी
आर एम चौधरी	(31775)	18 जून 13 से प्रभावी
अभिषेक गुरवारा	(31777)	18 जून 13 से प्रभावी
टी के सिक्कुमार	(31749)	18 जून 13 से प्रभावी
आई एस केलकर	(31760)	18 जून 13 से प्रभावी
प्रशांत कुमार	(31759)	18 जून 13 से प्रभावी
एस ए दामगुडे	(31789)	18 जून 13 से प्रभावी
के विनोद वन्या	(31776)	18 जून 13 से प्रभावी
कुमार गौरव	(31794)	18 जून 13 से प्रभावी
अविनाश	(31783)	18 जून 13 से प्रभावी
वी पी जयकर	(31745)	18 जून 13 से प्रभावी
विवेक आनंद	(31754)	18 जून 13 से प्रभावी
स्वप्निल डोंगरे	(31765)	18 जून 13 से प्रभावी
मोहित चौधरी	(31773)	18 जून 13 से प्रभावी
ए सलारिया	(31746)	18 जून 13 से प्रभावी
एस एस सावंत	(31786)	18 जून 13 से प्रभावी
निकेत कर्नाटक	(31784)	18 जून 13 से प्रभावी
वी के जायसवाल	(31768)	18 जून 13 से प्रभावी
एस बी नायर	(31763)	18 जून 13 से प्रभावी
राकेश गिल	(31782)	18 जून 13 से प्रभावी
बी हरि कृष्ण	(31756)	18 जून 13 से प्रभावी

आनंद जी कृष्णन	(31767)	18 जून 13 से प्रभावी
के टी जामवाल	(31791)	18 जून 13 से प्रभावी
दीपक गुलाटी	(31889)	25 जून 13 से प्रभावी
ए कुल्हर	(31887)	25 जून 13 से प्रभावी
जयलजित सिंह	(31886)	25 जून 13 से प्रभावी
पी ए कोडगुले	(31884)	19 जून 13 से प्रभावी
सिद्धार्थ सिंह	(31891)	03 जुलाई 13 से प्रभावी

एफ (एन) शाखा

जी एस मारवाहा	(31839)	18 जून 13 से प्रभावी
अनीश मेनन	(31824)	18 जून 13 से प्रभावी
सहिल जैन	(31841)	18 जून 13 से प्रभावी
आयुष अवस्थी	(31779)	18 जून 13 से प्रभावी
एच के गुप्ता	(31800)	18 जून 13 से प्रभावी
एम के चौधरी	(31796)	18 जून 13 से प्रभावी
सोमय्या सी जी	(31838)	18 जून 13 से प्रभावी
निरंजन प्रभु	(31787)	18 जून 13 से प्रभावी
सागर कुमार	(31766)	18 जून 13 से प्रभावी
प्रत्युष राज	(31792)	18 जून 13 से प्रभावी
आर एस रजावत	(31748)	18 जून 13 से प्रभावी
सी के चौधरी	(31836)	18 जून 13 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

गुरिकबाल कुटवल	(31833)	18 जून 13 से प्रभावी
के सुरानी	(31817)	18 जून 13 से प्रभावी
पी फागड़े	(31831)	18 जून 13 से प्रभावी
जैस मॉन राजू	(31832)	18 जून 13 से प्रभावी
रणवीर सिंह	(31834)	18 जून 13 से प्रभावी
मयंक अभिषेक	(31823)	18 जून 13 से प्रभावी
के राघव	(31820)	18 जून 13 से प्रभावी
ए सिंह	(31822)	18 जून 13 से प्रभावी
शालीन शर्मा	(31828)	18 जून 13 से प्रभावी
दीपक सेठ	(31840)	18 जून 13 से प्रभावी
विनीत जोशी	(31829)	18 जून 13 से प्रभावी
सत्यप्रकाश मिश्रा	(31837)	18 जून 13 से प्रभावी
अंकुर पवार	(31821)	18 जून 13 से प्रभावी

ए पटयाल	(31835)	18 जून 13 से प्रभावी
आर आर नायर	(31818)	18 जून 13 से प्रभावी
देवांक शर्मा	(31816)	18 जून 13 से प्रभावी
ए शुक्ला	(31830)	18 जून 13 से प्रभावी
सीमा शेरॉन	(31865)	18 जून 13 से प्रभावी
अमृता एम	(31866)	18 जून 13 से प्रभावी
सुनैना मलिक	(31864)	18 जून 13 से प्रभावी
कीर्ति	(31862)	18 जून 13 से प्रभावी
गायत्री आर नायर	(31863)	18 जून 13 से प्रभावी
नीलोफर तारिक	(31893)	18 जुलाई 13 से प्रभावी
पल्लवी मोहापात्रा	(31885)	19 जून 13 से प्रभावी

पी एस सुरंगे
विंग कमांडर
जे डी पी ओ-3(डी)
वायु सेना मुख्यालय (वायु भवन)

(सेना शाखा)

सं. 189 दिनांक 9 अगस्त 2016—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले0 के पद पर दिनांक 13 मई 2000 से)

शुद्धिपत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेना के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग लेफ्टिनेंट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 02 जून 2001 को 106 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है।

के लिए	.	जाधव संपतराव दातासाहेब	आई सी सं0 — 59884पी	आर्टी
पढ़ें	.	जाधव संपतराव दादासाहेब	आई सी सं0 — 59884पी	आर्टी

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(2/ले0 के पद पर दिनांक 19 दिसम्बर 1992 से)

शुद्धिपत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेना के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग 2/लेफ्टिनेंट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 11 दिसम्बर 1993 को 91आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है।

के लिए	.	एस मुरुगअनन्थन	आई सी सं0 — 51588पी	आर्टी
पढ़ें	.	एस मुरुगअनन्थम	आई सी सं0 — 51588पी	आर्टी

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(2/ले0 के पद पर दिनांक 07 दिसम्बर 1996 से)

शुद्धि पत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग 2/लेफ्टिनेंट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 07 फरवरी 1998 को 99 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है।

के लिए	—	गणेश वी राघवन	आई सी—56898के	मैक
पढ़ें	—	गणेश वी राघवन	आई सी—56898के	मैक

एस एन मिश्रा
ले0 कर्नल
एएमएस 8बी

(सेना शाखा)

सं. 190, दिनांक 10 अगस्त 2016—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(2/ले0 के पद पर दिनांक 11 जून 1988 से)

शुद्धिपत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेना के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग 2/लेफ्टिनेंट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 22 जुलाई 1989 को 65 टी जी सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है।

के लिए	.	धीरज मोहन	आई सी सं0 —47960ए	इंजिनियर्स
पढ़ें	.	धीरज मोहन	आई सी सं0 —47960के	इंजिनियर्स

अभिषेक तिवारी
मेजर
एएमएस 8बी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 27th August 2016

(ARMY BRANCH)

No. 184, dated 2nd August 2016—The President is pleased to make the following appointments:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f 13 Dec 2014)

The undermentioned one Gentleman Cadet of 135 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Dec 2014 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

ABHYODYA PANDEY (IC-79963L) ARTY seniority next below ABHISHEK KUMAR SINGH(IC-79962H) INF whose name appeared in the Gazette of India.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f 13 Jun 2015)

The undermentioned Two Gentleman Cadet of 136 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Jun 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

SHALABH SHARAD(IC-80543X) AAD seniority next below NAREN KUMAR D (IC-80542P) ENGRS COMMA SHAILENDRA SINGH(IC-80619M) INF seniority next below ANUP YADAV (IC-80618K) INF whose name appeared in the Gazette of India.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned 02 (two) Gentleman Cadets (GCs) of 21 UES course whose GC number is prefixed by 'U' (denoting UES) are granted permanent commission in the rank of Lt wef 08 Jun 2013 (F/N) and are also granted one year ante-date seniority for pay and promotions wef 10 Jun 2012 under the terms and conditions of AI 2/93, as amended for the GCs of University Entry Scheme Course.

U/1244 AKHILESH KUMAR (IC 78133H), EME with the seniority below T/7252 AMAN NANDA (IC 78132A) AC, U/1225 NITESH TAHALRAMANI (IC 78205F), AC with the seniority above T/7239 MANDAOGADE MOHAN YASHWANT (IC 78206K) AAD whose name has been published in Gazette of India, Part-I Section –IV.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f 13 Jun 2015)

The undermentioned Two Gentleman Cadet of 136 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Jun 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

SATYENDRA KUMAR GIRI (IC-80555M) ARTY seniority next below ARJUN ARUN KUMAR (IC-80554K) AC COMMA RITURAJ SINGH RAWAT (IC-80614N) SIGS seniority next below DHANANJAY SINGH HOODA (IC-80613L) AC whose name appeared in the Gazette of India.

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

The undermentioned 02 (two) GCs of 21 University Entry Scheme Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against their name under the provision of AI 2/93, as amended for the GCs of UES Course:-

IMA No	Name	SS No	Arm/ Service	Date of SSC (On Probation)
21 University Entry Scheme Course				
U/1225	NITESH TAHALRAMANI	46622A	SIGS	01 JUL 11
U/1244	AKHILESH KUMAR	46641L	EME	01 JUL 11

The Arm/ Service allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.

S N MISHRA
Lt Col
AMS 8B

(ARMY BRANCH)

No. 185, dated 3rd August 2016—The President is pleased to make the following appointments:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f 14 Dec 2013)

The undermentioned one Gentleman Cadet of 133 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 14 Dec 2013 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

MANISH YADAV (IC-78611F) ARTY seniority next below SUNESH SUDAN (IC-78610Y) ARTY whose name appeared in the Gazette of India.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f 13 Dec 2014)

The undermentioned One Gentleman Cadet of 135 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Dec 2014 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

AKSHAT JOSHI (IC-79983Y) INF seniority next below VIKAS SINGH RANA (IC-79982W) ARTY whose name appeared in the Gazette of India.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f 13 Jun 2015)

The undermentioned Seven Gentleman Cadet of 136 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Jun 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

SHANDEEP BAL (IC-80298A) INF seniority next below WASIF MAJIED TAK (IC-80297X) AC COMMA SWARAJ SINGH (IC-80377P) INF seniority next below RAHUL KUMAR SINGH (IC-80376M) AAD COMMA VIVEK TYAGI (IC-80436W) INF seniority next below NILESH KUMAR PANDEY (IC-80435N) ARTY COMMA SUMEET KUMAR JANA (IC-80545H) ENGRS seniority next below NAVEEN KUMAR (IC-80544A) ASC COMMA PUSHPENDRA SINGH (IC-80556P) AC seniority next below SATYENDRA KUMAR GIRI (IC-80555M) ARTY COMMA YATIN BHARDWAJ (IC-80590P) ARTY seniority next below ANIKET PAWAR (IC-80589A) ARTY COMMA RITURAJ MISHRA (IC-80606P) MECH seniority next below VISHAL SOLANKI (IC-80605M) INF whose name appeared in the Gazette of India.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f 14 Jun 2014)

The undermentioned one Gentleman Cadet of 134 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 14 Jun 2014 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

SEEMANT SINGH (IC-79078K) ENGRS seniority next below AJIT SINGH (IC-79077F) INF whose name appeared in the Gazette of India.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f 13 Jun 2015)

The undermentioned One Gentleman Cadet of 136 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Jun 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

ANKIT SAURABH (IC-80219A) ARTY seniority next below SHRAWAN KUMAR SINGH (IC-80218X) INT whose name appeared in the Gazette of India.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f 13 Dec 2014)

The undermentioned Seven Gentleman Cadet of 135 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Dec 2014 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

GURJEET SINGH (IC-79775K) INF seniority next below D SEHGAL (IC-79774F) ARTY COMMA SUNNY KUMAR (IC-79799N) INF seniority next below ATTI NARESH KUMAR (IC-79798L) AAD COMMA SIDDHARTH TIWARI (IC-79849N) ENGRS seniority next below AKSHAY KUMAR (IC-79848L) ARTY COMMA KRISHNA VEER SINGH (IC-79868Y) AOC seniority next below SHASHANK DALAL (IC-79867W) AC COMMA VIPUL CHANDRA MOTIWALA (IC-79921Y) INF seniority next below N SHRIRAM (IC-79920W) INF COMMA SAURABH MISHRA (IC-79979W) INF seniority next below KAVI PRATEEK NARAIN (IC-79978N) INF COMMA ADITYA KALA (IC-79994L) ARTY seniority next below KUMAR GAURAV (IC-79993H) ARTY whose name appeared in the Gazette of India.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f 14 Jun 2014)

The undermentioned one Gentleman Cadet of 134 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 14 Jun 2014 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

PARIKH BHATTA (IC-79319Y) ENGRS seniority next below RAHUL SHARMA (IC-79318W) ENGRS whose name appeared in the Gazette of India.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f 14 Dec 2013)

The undermentioned one Gentleman Cadet of 133 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 14 Dec 2013 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

AJAY PATHAK (IC-78723F) INF seniority next below SHANTANU KAUSHIK (IC-78722Y) AAD whose name appeared in the Gazette of India.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f 08 Jun 2013)

The undermentioned One Gentleman Cadet of 132 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 08 Jun 2013 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

ADITYA JAIN (IC-77871A) AAD seniority next below ABHISHEK SINGH (IC-77870X) ARTY whose name appeared in the Gazette of India.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned 13 (thirteen) Gentleman Cadets (GCs) of 118 Technical Graduate Course (TGC) whose GC number are prefixed by 'T' (denoting TGC) are granted permanent commission in the rank of Lt wef 13 Dec 2014 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended and are also granted one year ante-date seniority for pay and promotions wef 15 Dec 2013 under SAI 1/S/94, as amended for the GC of TGC course. One GC T/7598 Priyank Malik commissioned in AEC is granted commission in the rank of Lt wef 13 Dec 2014 under AI 105/61 hence he is not granted ante date seniority.

T/7626 PREET RAJ KOTHURI (IC 80125H) ENGRS with the seniority below T/7596 SUMEET SODHI (IC 80124A) MECH, T/7611 ROHIT KUMAR JHA (IC 80128W) ARTY with the seniority below T/7601 AANAND SREEKUMAR C (IC 80127N) ENGRS, T/7616 ADITYA DUBEY (IC 80133F) SIGS with the seniority below T/7606 ABHISHEK THAKUR (IC 80132Y) EME T/7572 NEERAJ SHUKLA (IC 80138A) EME with the seniority below T/7614 ABHISHEK MISHRA (IC 80137X) SIGS T/7571 ROHIT SHARMA (IC 80140X) INF with the seniority below T/7631 KUNAL KAPOOR (IC 80139H) ENGRS, T/7586 JATINDER SINGH (IC 80141A) ENGRS with the seniority below T/7631 KUNAL KAPOOR (IC 80139H) ENGRS AND ABOVE T/7604 BHAARGAV P BAILE (IC 80144N) AAD, T/7481 ASHISH KUMAR SINGH (IC 80143L) EME with the seniority above T/7604 BHAARGAV P BAILE (IC 80144N) AAD, T/7609 SUNIL KUMAR (IC 80145W) SIGS with the seniority below T/7604 BHAARGAV P BAILE (IC 80144N) AAD, T/7607 ANKUSH ARORA (IC 80151K) ARTY with the seniority below T/7597 NIKHIL DEY (IC 80150F) SIGS, T/7630 MANUMAY BISHT (IC 80157L) ENGRS with the seniority below U/1323 ABHISHEK CHATURVEDI (IC 80156H) EME, T/7595 GURPREET SINGH SUDAN (IC 80161N) ENGRS with the seniority below T/7576 LAKSHAY SAINI (IC 80160L) ENGRS, T/7598 PRIYANK MALIK (IC 80171X) AEC with the seniority above T/7627 MD NURUZZAMAN (IC 80172A) ENGRS, T/7622 ABHIJEET CHAKRAVERTY (IC 80175N) AOC with the seniority below T/7525 P DIPIN NAIR (IC 80174L) EME, whose name has been published in Gazette of India.

The undermentioned 01 (one) Gentleman Cadets (GC) of 113 Technical Graduate Course whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) is granted permanent commission in the rank of Lt wef 09 Jun 2012 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended and is also granted one year ante-date seniority for pay and promotions wef 12 Jun 2011 under SAI 1/S/94, as amended for GC of TGC Course.

T/7074 PRADEEP SINGH (IC 76960M) ENGRS with the seniority below U/1136 ARSHDEEP SINGH SODHI (IC 76959X) SIGS, whose name has been published in Gazette of India.

The undermentioned 13 (thirteen) Gentleman Cadets (GCs) of 117 Technical Graduate Course (TGC) & 22 University Entry Scheme (UES) course whose GC number are prefixed by 'T' (denoting TGC) and 'U' (denoting UES) are granted permanent commission in the rank of Lt wef 14 Jun 2014 (F/N) and are also granted one year ante-date seniority for pay and promotions wef 14 Jun 2013 under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended & AI 2/93, as amended for GCs of TGC & UES course respectively.

T/7545 ANUJ KUMAR (IC 79401N) INF with the seniority below T/7519 ANKUR (IC 79400L) AC, U/1277 SHARANG JAIN (IC 79411X) SIGS with the seniority below T/7555 MUKESH YADAV (IC 79410P) INF, T/7546 ANIL KUMAR YADAV (IC 79414L) INF with the seniority below U/1303 AMANDEEP SINGH (IC 79413H) ENGRS, U/1317 KAMAL SINGH (IC 79427H) INF with the seniority below U/1281 AAKARSHAN BHAT (IC 79426A) ENGRS, U/1269 ABHILASH KUMAR PATHAK (IC 79431L) INF with the seniority below T/7522 P NARESH GOUD (IC 79430H) AOC, T/7468 CHETAN SINGH JADON (IC 79438P) ENGRS with the seniority below U/1265 NIKHIL BHAT (IC 79437M) INF, T/7470 ABDUL QUADIR KHAN (IC 79448Y) SIGS with the seniority below T/7531 SAHIL SHARMA (IC 79447W) SIGS, U/1325 ASHISH NARAYAN DUBEY (IC 79455P) ARTY with the seniority below T/7498 GURU MOORTHY S (IC 79454M) AVN, T/7503 ADITYA SHANKAR (IC 79457A) AAD with the seniority below T/7527 SHIVANAND PATIL (IC 79456X) SIGS, T/7486 MUDIT (IC 79478W) EME with the seniority below U/1292 VINIT SHARMA (IC 79477N) SIGS, U/1283 ROBIN BARAN MUKHOPADHYAY (IC 79524A) AOC with the seniority below U/1268 ANURAG KAUSHAL (IC 79523X) EME, U/1291 SHOUVIK SARKAR (IC 79537X) EME with the seniority below U/1259 MOHD ARHAM (IC 79536P) ARTY, T/7541 SARVESH KUMAR PANTHI (IC 79565K) EME with the seniority above T/7562 MARIA CHARLES I (IC 79566M) ARTY whose name has been published in Gazette of India.

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

The undermentioned 13 (thirteen) GCs of 117 Technical Graduate Course (TGC) & 22 University Entry Scheme (UES) are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy,

Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against their name under the provision of SAI 1/S/94, as amended for the GCs of TGC Course and AI 2/93, as amended for the GCs of UES course:-

IMA No	Name	SS No	Arm/Service	Date of SSC on Probation
117 Technical Graduate Course				
T/7468	CHETAN SINGH JADON	47373Y	EME	15-Jul-13
T/7470	ABDUL QUADIR KHAN	47375K	SIGS	15-Jul-13
T/7486	MUDIT	47391F	ENGRS	15-Jul-13
T/7503	ADITYA SHANKAR	47408K	EME	15-Jul-13
T/7541	SARVESH KUMAR PANTHI	47445X	SIGS	15-Jul-13
T/7545	ANUJ KUMAR	47449N	SIGS	15-Jul-13
T/7546	ANIL KUMAR YADAV	47450H	EME	15-Jul-13
22 University Entry Scheme Course				
U/1269	ABHILASH KUMAR PATHAK	47485Y	EME	01-Jul-12
U/1277	SHARANG JAIN	47493X	EME	01-Jul-12
U/1283	ROBIN BARAN MUKHOPADHYAY	47499Y	ASC	01-Jul-12
U/1291	SHOUVIK SARKAR	47507M	EME	01-Jul-12
U/1317	KAMAL SINGH	47533N	SIGS	01-Jul-12
U/1325	ASHISH NARAYAN DUBEY	47541M	SIGS	01-Jul-12

The Arm/ Service allotted to the GCs are valid for the duration of their training only.

The undermentioned one GC of 113 Technical Graduate Course is granted Short Service Commission (on probation) for the period of his training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against his name under the provision of SAI 1/S/94, as amended for the GC of TGC Course:-

IMA No	Name	SS No	Arm/Service	Date of SSC (on Probation)
113 Technical Graduate Course				
T/7074	PRADEEP SINGH	45585L	ENGRS	13 JUL 11

The Arm/ Service allotted to the GC is valid for the duration of his training only.

The undermentioned one GC of 117 Technical Graduate Course is granted Short Service Commission (on probation) for the period of his training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against his name under the provision of SAI 1/S/94, as amended for the GC of TGC Course:-

IMA No	Name	SS No	Arm/Service	Date of SSC (on Probation)
117 Technical Graduate Course				
T/7481	ASHISH KUMAR SINGH	47386W	EME	15 JUL 13

The Arm/ Service allotted to the GC is valid for the duration of his training only.

The undermentioned 11 (eleven) GCs of 118 Technical Graduate Course (TGC) are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against their name under the provision of SAI 1/S/94, as amended for the GCs of TGC Course:-

IMA No	Name	SS No	Arm/ Service	Date of SSC on Probation
118 Technical Graduate Course				
T/7571	ROHIT SHARMA	47769H	SIGS	14-Jan-14
T/7572	NEERAJ SHUKLA	47770X	ENGRS	14-Jan-14
T/7586	JATINDER SINGH	47783P	EME	14-Jan-14
T/7595	GURPREET SINGH SUDAN	47792W	ENGRS	14-Jan-14
T/7607	ANKUSH ARORA	47803X	EME	14-Jan-14
T/7609	SUNIL KUMAR	47804A	SIGS	14-Jan-14
T/7611	ROHIT KUMAR JHA	47806L	SIGS	14-Jan-14
T/7616	ADITYA DUBEY	47811W	SIGS	14-Jan-14
T/7622	ABHIJEET CHAKRAVERTY	47817X	AOC	14-Jan-14
T/7626	PREET RAJ KOTHURI	47821A	ENGRS	21-Jan-14
T/7630	MANUMAY BISHT	47825W	EME	03-Feb-14

The Arm/ Service allotted to the GCs are valid for the duration of their training only.

ABHISHEK TEWARY
Maj
AMS 8B

(ARMY BRANCH)

No. 186, dated 4th August 2016—The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

LT COL TO BE SUBSTANTIVE COL (BY SELECTION)

P.No	NAME	ARMS	SUBSTANTIVE RK
IC58712	M CHAUHAN	AC	10-03-2016 but sen wef 05-03-2014
IC58874	CS ADDYA	AC	26-03-2016 but sen wef 05-03-2014
IC59149	RAJAT SHARMA	AC	11-04-2016 but sen wef 05-03-2014
IC59302	JAYANT SINGH	AC	18-03-2016 but sen wef 05-03-2014
IC58654	BISWAJIT DASH	MECH INF	01-02-2016 but sen wef 05-03-2014
IC58669	AS RATHORE	MECH INF	01-02-2016 but sen wef 05-03-2014
IC56195	MAP KUMAR	INF	29-12-2015 but sen wef 08-05-2015
IC56321	KRISHNADAS TR	INF	26-10-2015 but sen wef 08-05-2015
IC56405	AKHIL MENDHE	INF	22-02-2016 but sen wef 08-05-2015
IC59684	SUDIP MAJEE, SM	INF	09-10-2015 but sen wef 08-05-2015
IC59719	PUNEET SHARMA	INF	10-06-2015 but sen wef 08-05-2015
IC59825	RAJAT TYAGI	INF	30-12-2015 but sen wef 08-05-2015
IC59838	CHINMAYA VARMA	INF	15-03-2016 but sen wef 08-05-2015

P.No	NAME	ARMS	SUBSTANTIVE RK
IC59846	SOURAV C	INF	05-01-2016 but sen wef 08-05-2015
IC59855	SANDEEP AZAD, SC	INF	15-01-2016 but sen wef 08-05-2015
IC59908	ANURAG SHARMA	INF	22-02-2016 but sen wef 08-05-2015
IC64828	AP SINGH	INF	16-02-2016 but sen wef 08-05-2015
IC64862	VIKRAM, SM	INF	04-11-2015 but sen wef 08-05-2015
IC64870	A BHAGI	INF	04-09-2015 but sen wef 08-05-2015
IC64902	AK SINGH	INF	22-03-2016 but sen wef 08-05-2015
IC60096	V KANWAR	INF	09-12-2015 but sen wef 08-05-2015
IC60121	SHINDE VS	INF	09-12-2015 but sen wef 08-05-2015
IC60141	MUKUND MG, SM	INF	09-12-2015 but sen wef 08-05-2015
IC60143	KMN KUTTAPPA	INF	29-03-2016 but sen wef 08-05-2015
IC60169	S RATHEE	INF	04-04-2016 but sen wef 08-05-2015
IC60179	RJ RANE	INF	09-12-2015 but sen wef 08-05-2015
IC60191	INDERJIT SINGH	INF	22-02-2016 but sen wef 08-05-2015
IC60213	HARI PRASAD	INF	14-03-2016 but sen wef 08-05-2015
IC60231	R KAUSHIK, SM	INF	09-12-2015 but sen wef 08-05-2015
IC60233	SHARANG PUN	INF	20-02-2016 but sen wef 08-05-2015
IC60239	A MUKHERJEE	INF	09-12-2015 but sen wef 08-05-2015
IC60253	K NAURIYAL	INF	11-04-2016 but sen wef 08-05-2015
IC60260	S GOVIL	INF	23-12-2015 but sen wef 08-05-2015
IC60323	A SINGH, SM	INF	09-12-2015 but sen wef 08-05-2015
IC60330	M TANEJA	INF	09-12-2015 but sen wef 08-05-2015
IC60339	AP KANDWAL	INF	14-03-2016 but sen wef 08-05-2015
IC60351	JS GILL	INF	09-12-2015 but sen wef 08-05-2015
IC60369	PANWAR H, SC	INF	09-12-2015 but sen wef 08-05-2015
IC60386	M SINGH	INF	09-12-2015 but sen wef 08-05-2015
IC60427	P KAR	INF	09-12-2015 but sen wef 08-05-2015
IC60442	VK SHEORAN	INF	09-12-2015 but sen wef 08-05-2015
IC60446	NS MANN, SM	INF	14-01-2016 but sen wef 08-05-2015
IC60453	HARISH R	INF	09-12-2015 but sen wef 08-05-2015
IC60501	KATARIA BHASKAR	INF	09-12-2015 but sen wef 08-05-2015
IC57343	S SINGH	AOC	01-12-2015 but sen wef 24-04-2012
IC56313	PAI GN	EME	01-09-2015 but sen wef 24-04-2012
IC57258	SRH SINGH	EME	01-08-2015 but sen wef 24-04-2012
IC57353	AK BALYAN	EME	01-09-2015 but sen wef 24-04-2012
IC57368	MS BHAU, SM	EME	01-09-2015 but sen wef 24-04-2012
IC57374	V JOSHI	EME	01-09-2015 but sen wef 24-04-2012
IC57395	A JOSHI	EME	01-09-2015 but sen wef 24-04-2012
IC57436	C CAPOOR	EME	01-09-2015 but sen wef 24-04-2012

P.No	NAME	ARMS	SUBSTANTIVE RK
IC57458	A BHARADWAJ	EME	01-09-2015 but sen wef 24-04-2012
IC57476	N NAVIN	EME	01-09-2015 but sen wef 24-04-2012
IC57483	K OBEROI	EME	01-09-2015 but sen wef 24-04-2012
IC57485	M KHANNA	EME	01-09-2015 but sen wef 24-04-2012
IC57489	NK BAHL	EME	01-09-2015 but sen wef 24-04-2012
IC57499	AVINASH SHARMA	EME	01-09-2015 but sen wef 24-04-2012
IC57511	SS CHAUHAN	EME	01-09-2015 but sen wef 24-04-2012
IC57520	NM KURIAKOSE	EME	01-09-2015 but sen wef 24-04-2012
IC57544	M DEWANGAN	EME	01-09-2015 but sen wef 24-04-2012
IC57601	M GULIA	EME	01-09-2015 but sen wef 24-04-2012
IC58938	VIKAS PANDEY	EME	01-08-2015 but sen wef 24-04-2012
IC58940	SACHIN KALIA	EME	01-08-2015 but sen wef 24-04-2012
IC58949	SK NAIR	EME	01-08-2015 but sen wef 24-04-2012
IC58950	S KUMAR	EME	01-08-2015 but sen wef 24-04-2012
IC58994	HS SIDHU	EME	01-08-2015 but sen wef 24-04-2012
IC58996	SAJJAN SINGH	EME	01-08-2015 but sen wef 24-04-2012
IC58998	RAJINDER SS	EME	01-08-2015 but sen wef 24-04-2012
IC59018	MRITUNJAY K	EME	18-11-2015 but sen wef 24-04-2012
IC59025	G SINGH	EME	01-08-2015 but sen wef 24-04-2012
IC59544	ROHIT SHARMA	EME	01-09-2015 but sen wef 24-04-2012
SL04152	RAM NIWAS	SL RO	01-10-2015 but sen wef 31-12-2010
IC55350	RS YADAV	AC	14-12-2015 but sen wef 21-07-2011
IC58630	SHOUVIK SEN	ARTY	14-03-2016 but sen wef 05-03-2014
IC59089	ASHISH AJ	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59136	PS KARKI	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59432	RAKESH K, SM	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58342	DIWAKER SINGH	SIGS	01-11-2015 but sen wef 04-03-2013
IC58399	A SRIVASTAVA	SIGS	01-11-2015 but sen wef 04-03-2013
IC58401	SK CHAKRAVARTY	SIGS	01-11-2015 but sen wef 04-03-2013
IC60084	AJAY KS	SIGS	07-12-2015 but sen wef 04-03-2013
IC57387	R YADAVA	AOC	01-12-2015 but sen wef 24-04-2012
IC57431	H KUMAR	AOC	01-02-2016 but sen wef 24-04-2012
SL04106	SS GILL	SL QM	01-12-2015 but sen wef 01-06-2009
IC 57777	ADVITIYA KATHURIA	ARTY	13/06/15 but sen wef 04/03/13
IC-47578	VS CHANDRAWAT, SM	INF	11/06/2008 but sen wef 10/01/2008

PERMANENT COMMISSION

LT COLS TO BE SUBSTANTIVE COL (BY TIME SCALE)

IC Number	Rank	Name	Arm	Subs Date
IC-40193N	Lt Col	SD Sawant	ARTY	19 Dec 2007

IC Number	Rank	Name	Arm	Subs Date
IC-43096F	Lt Col	IJS Chawla	ARTY	08 Jun 2011
IC-44673P	Lt Col	AK Sharma	INF	13 Jun 2013
IC-45568L	Lt Col	M Roberts	INF	22 Apr 2012
IC-46207Y	Lt Col	RS Rathore	ENGRS	18 Apr 2015
IC-46350L	Lt Col	S H Qureshi	AC	09 Nov 2015
IC-47687A	Lt Col	Ajay Bohtan	EME	11 Jun 2014
IC-48202Y	Lt Col	DK Sharma	INF	17 Dec 2014
IC-49077M	Lt Col	Gajendra Singh	ARTY	16 Dec 2015
IC-41640Y	Lt Col	KK Mishra	INF	17 Dec 2009
IC-46307K	Lt Col	R Shekhawat	SIGNALS	18 Apr 2016
IC-46404F	Lt Col	VJ Philip	ASC	09 Nov 2015
IC-46434Y	Lt Col	Rajeev Kumar Singh	AC	24 Apr 2016
IC-46435F	Lt Col	Brajesh Cally	INF	24 Apr 2016
IC-46446N	Lt Col	KS Manta	INF	24 Apr 2016
IC-46447W	Lt Col	KS Gill	INF	24 Apr 2016
IC-46449F	Lt Col	Mohit Lama	INF	24 Apr 2016
IC-46451Y	Lt Col	S Dutta	INF	24 Apr 2016
IC-46452F	Lt Col	R Srinivasan	ARTY	24 Apr 2016
IC-46454M	Lt Col	Hardeep Johar	INF	24 Apr 2016
IC-46489H	Lt Col	Jiwan Singh	SIGNALS	24 Apr 2016
IC-46491A	Lt Col	HR Sunil	ASC	24 Apr 2016
IC-46496Y	Lt Col	Virinder Singh	ARTY	24 Apr 2016
IC-46505P	Lt Col	Raghuraj Singh	INF	24 Apr 2016
IC-46516F	Lt Col	Randheir Singh	ASC	24 Apr 2016
IC-46518M	Lt Col	Aditya Sharma	ENGRS	24 Apr 2016
IC-46520K	Lt Col	GS Chabba	AC	24 Apr 2016
IC-46522P	Lt Col	S Kakkar	EME	24 Apr 2016
IC-46525H	Lt Col	Raman Duggal	ENGRS	24 Apr 2016
IC-46529Y	Lt Col	MS Deopa	INF	24 Apr 2016
IC-46533F	Lt Col	DS Khangarot	INF	24 Apr 2016
IC-46535M	Lt Col	JJ Prince	SIGNALS	24 Apr 2016
IC-46536P	Lt Col	DK Manik	EME	24 Apr 2016
IC-46537X	Lt Col	KPR Singh	INF	24 Apr 2016
IC-46548K	Lt Col	BGR Rao	ARTY	24 Apr 2016
IC-46551K	Lt Col	Rajesh Gupta	ENGRS	24 Apr 2016
IC-46554X	Lt Col	RC Jain	JAG	24 Apr 2016
IC-46555A	Lt Col	AK Jain	ENGRS	24 Apr 2016
IC-46558N	Lt Col	H Thukral	ARTY	24 Apr 2016

IC Number	Rank	Name	Arm	Subs Date
IC-48396M	Lt Col	Rabi Mukerjee	ARTY	17 Dec 2014
IC-49089F	Lt Col	S Dahiya	INF	16 Dec 2015
IC-49140W	Lt Col	GS Dhaliwal	INF	16 Dec 2015
IC-49336K	Lt Col	Bhatt Sanjay	AOC	16 Dec 2015
IC-51093H	Lt Col	NK Bairathi	ENGRS	17 Dec 2015
IC-46339M	Lt Col	D Tanwar	INF	09 Nov 2015
IC-46450W	Lt Col	Ajit Kumar Das	SIGNALS	24 Apr 2016
IC-46457A	Lt Col	Vijay Aswal	INF	24 Apr 2016
IC-46508H	Lt Col	Balbir Singh	ASC	24 Apr 2016
IC-46509L	Lt Col	TA Malik	INF	24 Apr 2016
IC-46513N	Lt Col	Y Ahlawat	GUARDSMECH	24 Apr 2016
IC-46532Y	Lt Col	US Kushwaha	INF	24 Apr 2016
IC-46556H	Lt Col	Damodar Haridas	EME	24 Apr 2016
IC-49042W	Lt Col	SKA Tiwari	INF	16 Dec 2015
IC-46399F	Lt Col	Jitendra Singh	EME	09 Nov 2015
IC-46402W	Lt Col	Rajesh Negi	SIGS	09 Nov 2015
IC-46465Y	Lt Col	M Singh	ARTY	24 Apr 2016
IC-46483F	Lt Col	AA Mathews	INF	24 Apr 2016
IC-46492H	Lt Col	Suresh Malik	INF	24 Apr 2016
IC-46497F	Lt Col	V Gupta	AC	24 Apr 2016
IC-46500W	Lt Col	V Thapliyal	INF	24 Apr 2016
IC-46503K	Lt Col	PS Kumar	EME	24 Apr 2016
IC-46512L	Lt Col	R Sharma	INF	24 Apr 2016
IC-46514W	Lt Col	A Gulia	ARTY	24 Apr 2016
IC-46515Y	Lt Col	Anupinder Singh	ARTY	24 Apr 2016
IC-46542H	Lt Col	NM Irani	AC	24 Apr 2016
IC-46546Y	Lt Col	AC Dhabe	EME	24 Apr 2016
IC-47441F	Lt Col	BS Chauhan	ARTY	19 Dec 2013
IC-48511F	Lt Col	AK Sheoran	MECH INF	10 Jun 2015
IC-48746N	Lt Col	VP Singh	INF	10 Jun 2015
IC-51107X	Lt Col	DSD Tiwari	ENGRS	17 Dec 2015

NAVIN KUMAR
Dy Dir
MS 8A

No. 187, dated 5th August 2016—The President is pleased to make the following promotion:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

LT TO BE CAPT

52199	ZAHIR AHMED KHAN	INF
-------	------------------	-----

—12 JUN 1998

2 LT TO BE LT

52199	ZAHIR AHMED KHAN	INF
-------	------------------	-----

—12 JUN 1995

SN MISHRA

Lt Col

AMS 8B

AIR FORCE

NO. 188, dated 8th August 2016—The President is pleased to make the following Substantive Promotion :-

INDIAN AIR FORCE

SQN LDR TO BE SUBSTANTIVE WG CDR

F(P) BRANCH

SAXENA ANSHUL (26118),	w.e.f 17-JUN-13
BANDARU JAGDEEP (26115),	w.e.f 17-JUN-13
BOPANNA MM (26092),	w.e.f 17-JUN-13
RAO KARKALA UDAYCHANDRA (26097),	w.e.f 17-JUN-13
VALLUPARAMBIL RAJAN RAKESH (26101),	w.e.f 17-JUN-13
NITIN SUBRAMANIAM (26120),	w.e.f 17-JUN-13
SODHI RANPREET SINGH (26082),	w.e.f 17-JUN-13
SINGH ANIL PRATAP (26086),	w.e.f 17-JUN-13
SRIVASTAVA NISHEEDH (26089),	w.e.f 17-JUN-13
ALEAPARAMBIL BABU PRAJIT BABU (26104),	w.e.f 17-JUN-13
SHELKE VIJAY KUMAR TUKARAM (26108),	w.e.f 17-JUN-13
PURI ANSHU (26114),	w.e.f 17-JUN-13
SEQUEIRA HANSEL JOSEPH (26081),	w.e.f 17-JUN-13
CHAUHAN GAURAV BS (26106),	w.e.f 17-JUN-13
MANDEEP CHAHAL (26084),	w.e.f 17-JUN-13
GARG SUMIT (26085),	w.e.f 17-JUN-13
GUPTA SHITIJ (26087),	w.e.f 17-JUN-13
RASTOGI ABHIJEET (26088),	w.e.f 17-JUN-13
PATEL JASWANT (26094),	w.e.f 17-JUN-13
PAWAR SATISH (26096),	w.e.f 17-JUN-13
MAHAJAN AMIT (26099),	w.e.f 17-JUN-13
KHOLIA GAURAV (26103),	w.e.f 17-JUN-13
SOOD ANKIT (26107),	w.e.f 17-JUN-13
SINGH SHREYANS KUMAR (26110),	w.e.f 17-JUN-13
MAHAJAN ABHINAV (26113),	w.e.f 17-JUN-13
PAUL SHISHU (26117),	w.e.f 17-JUN-13
SURAJ KUMAR (26119),	w.e.f 17-JUN-13

BANERJEE SANDEEP (26091),	w.e.f 17-JUN-13
YADAV SOURABH SINGH (26098),	w.e.f 17-JUN-13
SANGWAN AMIT KUMAR (26100),	w.e.f 17-JUN-13
NAIK JITIN HARI (26105),	w.e.f 17-JUN-13
SINGH CHARANJIV (26109),	w.e.f 17-JUN-13
SAH GEETESH KUMAR (26111),	w.e.f 17-JUN-13
SISODIA PRANAV (26112),	w.e.f 17-JUN-13

F(N) BRANCH

JHA ABHISHEK (26121),	w.e.f 17-JUN-13
OJHA DINESH KUMAR (26122),	w.e.f 17-JUN-13
BHARDWAJ RAKESH ROSHAN (26129),	w.e.f 17-JUN-13
SANKAR J (26125)	w.e.f 17-JUN-13
AMRUJKAR SHAILESH (26130),	w.e.f 17-JUN-13
LAKRA MOSES (26128),	w.e.f 17-JUN-13
GANGAYULA PAVAN KUMAR (26124),	w.e.f 17-JUN-13
RATHORE VIMALJEET SINGH (26131),	w.e.f 17-JUN-13
PANDA DEVIDUTTA (26127),	w.e.f 17-JUN-13

F(P) BRANCH

SINGH VED PRAKASH (26116),	w.e.f 26-JUN-2013
	(WITH NOTIONAL SENIORITY w.e.f 17-JUN-13)

ADM BRANCH

LATHIKA BOLKARANDA MADALIAH (26172),	w.e.f 17-JUN-13
D'SILVA ROCHELLE CECILIA (26175),	w.e.f 17-JUN-13

ACCTS BRANCH

ROGERS ARCHANA (26180),	w.e.f 17-JUN-13
MISHRA PUSHPA (26177),	w.e.f 17-JUN-13

EDN BRANCH

SHARMA ANURADHA (26181)	w.e.f 17-JUN-13
-------------------------	-----------------

FLT LT TO BE SUBSTANTIVE SQN LDR

ADM BRANCH

SUNOJ ANKARATH SUBRAN (29535),	w.e.f 16-JUN-13
SINHA PRABHAKAR (29521),	w.e.f 16-JUN-13
DAS SANDEEP (29533),	w.e.f 16-JUN-13
TEJODHAR PALIVELA (29524),	w.e.f 16-JUN-13
REDDY Y SRIDHAR (29531),	w.e.f 16-JUN-13
KUMAR MANOJ (29530),	w.e.f 16-JUN-13
ANNIYATH SATHIANANDAN (29529),	w.e.f 16-JUN-13
LOHKNA DEEPAK (29528),	w.e.f 16-JUN-13
SANGWAN DINESH KUMAR (29527),	w.e.f 16-JUN-13
MISHRA ARUN KUMAR (29525),	w.e.f 16-JUN-13

DOGRA AJAY SINGH (29542),	w.e.f 16-JUN-13
CHATURVEDI ANSHUL (29541),	w.e.f 16-JUN-13
JHA AMIT KUMAR (29540),	w.e.f 16-JUN-13
RAY KRISHNA MOHAN (29539),	w.e.f 16-JUN-13
RAMACHANDRAN DEEPESH KOSSERY (29538),	w.e.f 16-JUN-13
CHAHAL SUKHCHARAN SINGH (29537),	w.e.f 16-JUN-13
LAKHAWAT SUMEET (29536),	w.e.f 16-JUN-13
MISHRA SHASHANK SHANKAR (29523),	w.e.f 16-JUN-13
DUTTA SUVOJIT (29522),	w.e.f 16-JUN-13
KANT SACHIN CHANDER (29534),	w.e.f 16-JUN-13

LGS BRANCH

SHARMA AJATSHATRU (29548),	w.e.f 16-JUN-13
KAURA DIVYA DEEP (29547),	w.e.f 16-JUN-13
SINHA RAJEEV RANJAN KUMAR (29545),	w.e.f 16-JUN-13
GONDKAR CHETAN RAMESH (29544),	w.e.f 16-JUN-13
GUNISHETTY HARI PRASAD (29543),	w.e.f 16-JUN-13
MAHAPATRA DEEPAK KUMAR (29546),	w.e.f 16-JUN-13

ACCTS BRANCH

TIWARI ASHISH MOHAN (29550),	w.e.f 16-JUN-13
CARDOSO FRANCIS (29549),	w.e.f 16-JUN-13
VOHRA SAGAR (29554),	w.e.f 16-JUN-13
RAJAURE KUSHAGRA (29553),	w.e.f 16-JUN-13
SINGH RAJVEER (29552),	w.e.f 16-JUN-13
SINGH NIMRIT PREET (29551),	w.e.f 16-JUN-13

EDN BRANCH

NAIR V KRISHNA KUMAR (29556),	w.e.f 16-JUN-13
RAJARAM JOSHI (29555),	w.e.f 16-JUN-13
KUMAR SANJAY (29559),	w.e.f 16-JUN-13
SHARMA VIPIN KUMAR (29558),	w.e.f 16-JUN-13
REDDY KALWALA JAGAN MOHAN (29557),	w.e.f 16-JUN-13
KUMAR RANJIT (29565),	w.e.f 16-JUN-13
SIJOMON KARIMKUTTYKULAM VARKEY (29564),	w.e.f 16-JUN-13
MURUKESAN PREM KUMAR (29563),	w.e.f 16-JUN-13
MURALIDHARAN ACHUTHAN (29562),	w.e.f 16-JUN-13
SUMESH TK (29561),	w.e.f 16-JUN-13
SHARMA KAMAL KANT (29560),	w.e.f 16-JUN-13

MET BRANCH

DAS SUDEEP (29566),	w.e.f 16-JUN-13
ANIL (29171),	w.e.f 16-JUN-13

ADM BRANCH

SINGH HARENDRA KUMAR (29567), w.e.f 01-JUL-13

ADM BRANCH

SURESH CHALUVADI VENKATA (29601), w.e.f 16-JUL-13

AE(L) BRANCH

SUMATI CHANDRA (29864), w.e.f 07-JAN-14
 GUPTA NEHA (29865), w.e.f 07-JAN-14
 KAUR PARMINDER (29866), w.e.f 07-JAN-14
 SUJATA (29867), w.e.f 07-JAN-14
 BHOO MIKA ANAND (29868), w.e.f 07-JAN-14
 TANWAR SHEETAL (29863), w.e.f 07-JAN-14
 AHUJA MANISH (29857), w.e.f 07-JAN-14
 SINGH ARUN KUMAR (29858), w.e.f 07-JAN-14
 SAPNA JANARDHAN (29859), w.e.f 07-JAN-14
 NAYAK RITU (29860), w.e.f 07-JAN-14
 SHARMA NAVIDATA (29862), w.e.f 07-JAN-14
 SHARMA CHARU (29861), w.e.f 07-JAN-14

ADM BRANCH

SWAMY TIRUNAGARI NARSIMHA (29751), w.e.f 16-Dec-13
 KUMAR R ARUN (29753), w.e.f 16-Dec-13
 DHANKAR VIJAY KUMAR (29750), w.e.f 16-Dec-13

LGS BRANCH

SHARMA MUKUND (29760), w.e.f 16-Dec-13
 SINGH SANDEEP PREM (29756), w.e.f 16-Dec-13
 KANDALA PRAVEEN (29754), w.e.f 16-Dec-13
 CHAKRABORTY BAPUN (29755), w.e.f 16-Dec-13
 KUMAR RAKESH (29759), w.e.f 16-Dec-13
 RAWAT A S (29758), w.e.f 16-Dec-13
 BHOSALE TEJSING VIJAYRAO (29757), w.e.f 16-Dec-13

ACCTS BRANCH

SINGH SALIL (29761), w.e.f 16-Dec-13

EDN BRANCH

RAJKUMAR M (29764), w.e.f 16-Dec-13
 CHAUHAN GURDEEP SINGH (29765), w.e.f 16-Dec-13
 GOSWAMI RAJA (29766), w.e.f 16-Dec-13
 PILLAI KIRAN VELAPPAN (29767), w.e.f 16-Dec-13
 SAXENA RAJEEV (29768), w.e.f 16-Dec-13
 SINGH BHAWANI (29769), w.e.f 16-Dec-13

MET BRANCH

SINGH SARUNGBAM DENNY (29411), w.e.f 16-Dec-13
 SHARMA RAHUL (29412), w.e.f 16-Dec-13

AE(L) BRANCH

JAIN LAVI (29842), w.e.f 03-JUL-13

AE(M) BRANCH

SHREE KRISHNA (30145), w.e.f 03-JUL-13

RAI MUKESH (30060), w.e.f 03-JUL-13

SINGH MAHEEP (30059), w.e.f 03-JUL-13

JOSHI KSHITIJ (30058), w.e.f 03-JUL-13

DESAI SWAPNIL (30057), w.e.f 03-JUL-13

PAL RAMANDEEP (30056), w.e.f 03-JUL-13

NAUTIYAL PRAVEEN CHANDRA (30055), w.e.f 03-JUL-13

JOSE INBARAJ D (30054), w.e.f 03-JUL-13

AE(L) BRANCH

CHANDRA DEEP (30380), w.e.f 03-JUL-13

SHEKHAR SHASHANK (30381), w.e.f 03-JUL-13

GOKHALE AMIT ASHOK (30076), w.e.f 03-JUL-13

VATTA ABHIMANYU (30077), w.e.f 03-JUL-13

SINGH ASHUTOSH (30078), w.e.f 03-JUL-13

SINGH PUNIT (30079), w.e.f 03-JUL-13

SALMAN MOHD AJMAL (30080), w.e.f 03-JUL-13

LUTHRA ABHISHEK (30081), w.e.f 03-JUL-13

ASTHANA SHIVANCHAL (30082), w.e.f 03-JUL-13

SINGH VIKRANT (30083), w.e.f 03-JUL-13

SINGH ASHWANI KUMAR (30084), w.e.f 03-JUL-13

RAI NIKHIL (30085), w.e.f 03-JUL-13

GUSAIN ANUPAM (30086), w.e.f 03-JUL-13

BHADE PRAVEEN KUMAR (30087), w.e.f 03-JUL-13

SINGH AVINASH (30088), w.e.f 03-JUL-13

KUMAR PRADEEP (30089), w.e.f 03-JUL-13

CHANDRA NITANSHU (30090), w.e.f 03-JUL-13

MUKERJI PRIYANSHU (30091), w.e.f 03-JUL-13

JOSHI UMESH (30092), w.e.f 03-JUL-13

KUMAR NITIN (30093), w.e.f 03-JUL-13

KULKARNI AKSHAY (30094), w.e.f 03-JUL-13

SAHOO JETENDRA KUMAR (30095), w.e.f 03-JUL-13

ARJUN V (30096), w.e.f 03-JUL-13

RAI ASHUTOSH (30097), w.e.f 03-JUL-13

RAY BRAJESH KUMAR (30062), w.e.f 03-JUL-13

SINGH JAGBIR (30063), w.e.f 03-JUL-13

PRUSTY SANDEEP KUMAR (30065), w.e.f 03-JUL-13

MITRA SANDEEP (30066), w.e.f 03-JUL-13

YADAV SHEKHAR (30067), w.e.f 03-JUL-13

MAHAL SIMRANJIT SINGH (30068), w.e.f 03-JUL-13

SINGH SHAKTIYAVESH NANDAN PRATAP SINGH (30069),	w.e.f 03-JUL-13
GOSWAMI VIVEK (30070),	w.e.f 03-JUL-13
SAMEER ANAND (30071),	w.e.f 03-JUL-13
ADM BRANCH	
BISHT KAMIYA (29580),	w.e.f 16-JUN-13
MISHRA ANJALI (29581),	w.e.f 16-JUN-13
SONKAR DARSHNA (29582),	w.e.f 16-JUN-13
LGS BRANCH	
GARG SHIVA (29584),	w.e.f 16-JUN-13
ACCTS BRANCH	
KAMAKSHI VISHWANATHAN PADMAJA (29586),	w.e.f 16-JUN-13
NEGI RAJRATNA (29587),	w.e.f 16-JUN-13
SINGH TANU (29588),	w.e.f 16-JUN-13
RANA NEHA (29589),	w.e.f 16-JUN-13
EDN BRANCH	
FATIMA NASREEN (29595),	w.e.f 16-JUN-13
KUSUM (29596),	w.e.f 16-JUN-13
GULIA CHETNA (29590),	w.e.f 16-JUN-13
REENA (29591),	w.e.f 16-JUN-13
SUCHETA (29592),	w.e.f 16-JUN-13
KUMARI KALPANA (29593),	w.e.f 16-JUN-13
CHITRE SUPRIYA SUNIL (29594),	w.e.f 16-JUN-13
MET BRANCH	
VATS BHARTI (29173),	w.e.f 16-JUN-13
KADAM ASHWINI BHARAT (29172),	w.e.f 16-JUN-13
ACCTS BRANCH	
MISHRA APEKSHA (29585),	w.e.f 06-SEP-13
ADM BRANCH	
MAHAJAN SUMEET (29578),	w.e.f 16-JUN-13
ACCTS BRANCH	
ANEESH TR (29579),	w.e.f 16-JUN-13
AE(M) BRANCH	
YADAV INDU (29655),	w.e.f 02-JUL-13
AE(L) BRANCH	
JOHRI SHOBHIT (29654),	w.e.f 02-JUL-13
SHARMA KANCHAN (29656),	w.e.f 02-JUL-13
RAI ARCHANA SUBHASH (29658),	w.e.f 02-JUL-13
TAMBE PRAGYA (29659),	w.e.f 02-JUL-13
GUPTA KHUSHBOO (29660),	w.e.f 02-JUL-13

ARCHANA S (29663),	w.e.f 02-JUL-13
DUBEY DEEPTI (29664),	w.e.f 02-JUL-13
SINGH TULIKA (29665),	w.e.f 02-JUL-13
KHARE SUVASITA (29666),	w.e.f 02-JUL-13
CHAUHAN BHAWANA (29667),	w.e.f 02-JUL-13
SHADANGI PRIYANKA (29668),	w.e.f 02-JUL-13
KUMAR RAJIT (29653),	w.e.f 02-JUL-13
MUALLIM MD ARQAM (29613),	w.e.f 02-JUL-13
ISMAEL MOHAMMAD (29637),	w.e.f 02-JUL-13
GOVERDHAN NISHA (29669),	w.e.f 08-JUL-13
KAUSHAL KUNAL (30072),	w.e.f 03-JUL-13
BAJAJ SAHIL (30073),	w.e.f 03-JUL-13
ADVANI AKHIL (30074),	w.e.f 03-JUL-13
RAJPUT LALIT (30075),	w.e.f 03-JUL-13
SAXENA RAHUL (30154),	w.e.f 03-JUL-13
YADAV RAVINDER KUMAR (30146),	w.e.f 03-JUL-13
THAKUR MOHNISH (30143),	w.e.f 03-JUL-13
BAKSHI MAYANK (30141),	w.e.f 03-JUL-13
SAURABH PAWAN KUMAR (30140),	w.e.f 03-JUL-13
BIRTHAREY SACHIN PATHAK (30100),	w.e.f 03-JUL-13
SONI ABHISHEK (30061),	w.e.f 03-JUL-13
KUMAR SANTOSH (30098),	w.e.f 03-JUL-13
WALIA ASHWANI (30099),	w.e.f 03-JUL-13

F(P) BRANCH

GUPTA KHUSHBOO (29576),	w.e.f 16-JUN-13
SHUMATHI MP (29575),	w.e.f 16-JUN-13
VIDHATE ARUNIMA JEEVAN (29577),	w.e.f 16-JUN-13
JAIN SANDEEP (29439),	w.e.f 16-JUN-13
GILL DEEPAK (29440),	w.e.f 16-JUN-13
KARTIK SIDHESH (29441),	w.e.f 16-JUN-13
BANERJEE RONIT (29442),	w.e.f 16-JUN-13
GOSWAMY NITIN (29443),	w.e.f 16-JUN-13
MANCHANDA LOKESH (29444),	w.e.f 16-JUN-13
SHINDE SURAJ (29445),	w.e.f 16-JUN-13
KUMAR MUKESH (29446),	w.e.f 16-JUN-13
MANOHAR ARJUN (29447),	w.e.f 16-JUN-13
RANJAN MRINAL (29448),	w.e.f 16-JUN-13
SAHAY RAUNAQ (29450),	w.e.f 16-JUN-13
MAHALE AKSHAY ARUN (29451),	w.e.f 16-JUN-13
VAZ NEVILLE (29452),	w.e.f 16-JUN-13

NIRANJAN NIKHIL (29453),	w.e.f 16-JUN-13
KUMAR ANKUSH (29455),	w.e.f 16-JUN-13
BHARTENDU KANAV (29456),	w.e.f 16-JUN-13
SURYAWANSHI CHAITANYA (29457),	w.e.f 16-JUN-13
DALAI SANTOSH KUMAR (29458),	w.e.f 16-JUN-13
SINGH SHAILENDRA KUMAR (29459),	w.e.f 16-JUN-13
JOY JOMIS (29460),	w.e.f 16-JUN-13
SINGH JAI (29462),	w.e.f 16-JUN-13
GOSWAMY VINEET (29463),	w.e.f 16-JUN-13
SETH VIKRAM (29464),	w.e.f 16-JUN-13
KUMAR ANIL (29465),	w.e.f 16-JUN-13
KRISHANAN M ANOOP (29466),	w.e.f 16-JUN-13
RAHMAN RASHIKUR (29497),	w.e.f 16-JUN-13
KUMAR ANIL (29498),	w.e.f 16-JUN-13
MISHRA RAHUL (29500),	w.e.f 16-JUN-13
KUNJAPPAN NAVIN CHAND KUTTIPARAMPATHU (29467),	w.e.f 16-JUN-13
CHAUHAN UTTAM KUMAR (29468),	w.e.f 16-JUN-13
DEVESAR SHIVANKUR (29469),	w.e.f 16-JUN-13
PRADHAN SIDDHARTH (29471),	w.e.f 16-JUN-13
BHADOLA ASHUTOSH (29472),	w.e.f 16-JUN-13
DAISH (29473),	w.e.f 16-JUN-13
GUHA MANASH KUMAR (29474),	w.e.f 16-JUN-13
INALA SAMRAT (29476),	w.e.f 16-JUN-13
RAJ NITIN (29477),	w.e.f 16-JUN-13
DHINGRA DEEPAK (29478),	w.e.f 16-JUN-13
TRIPATHI MANISH (29479),	w.e.f 16-JUN-13
GUPTA ARINDAM (29480),	w.e.f 16-JUN-13
AGARWAL SUCHIT (29516),	w.e.f 16-JUN-13
MOIRANGJAM HEROJIT SINGH (29517),	w.e.f 16-JUN-13
SANKHLA ABHINAV (29490),	w.e.f 16-JUN-13
LONGIA BALRAJ SINGH (29485),	w.e.f 16-JUN-13
SINGH KUNWAR NISHANT (29501),	w.e.f 16-JUN-13
HARSHA MADDLI VENKATA SRI (29502),	w.e.f 16-JUN-13
VYAS SHOBHIT (29503),	w.e.f 16-JUN-13
DESAI MUDIT VISHWESHBHAI (29504),	w.e.f 16-JUN-13
KUKRETI MAYANK (29506),	w.e.f 16-JUN-13
SINGH SHAILESH (29507),	w.e.f 16-JUN-13
PARTHA BASU AVIK (29509),	w.e.f 16-JUN-13
MANKOO JAGJEET SINGH (29511),	w.e.f 16-JUN-13
VIKAS TAXAK (29512),	w.e.f 16-JUN-13

BAJAJ GAUTAM (29513),	w.e.f 16-JUN-13
MULLAPUDI SRIRAM NAIDU (29514),	w.e.f 16-JUN-13
GAUR ANKIT KUMAR (29518),	w.e.f 16-JUN-13
RATHORE JAIDEEP SINGH (29491),	w.e.f 16-JUN-13
AHLAWAT CHETAN (29492),	w.e.f 16-JUN-13
KUMAR ANJAN (29493),	w.e.f 16-JUN-13
RAJENDER L NANDA (29494),	w.e.f 16-JUN-13
TIWARI NIKET (29495),	w.e.f 16-JUN-13
RATHEE AJIT SINGH (29496),	w.e.f 16-JUN-13
CHAUHAN DEEPAK (29482),	w.e.f 16-JUN-13
BUDHWAR ROMIT (29483),	w.e.f 16-JUN-13
SUBRAMANIAN UDHAYASANKAR ARAVIND (29484),	w.e.f 16-JUN-13
SINGH ANUP KUMAR (29486),	w.e.f 16-JUN-13
CHOPRA SIDDHARTH (29487),	w.e.f 16-JUN-13
SHARMA MANOJ (29488),	w.e.f 16-JUN-13

F(N) BRANCH

BHARDWAJ SHREE KANT (29454),	w.e.f 16-JUN-13
GHOSH SURAJIT (29461),	w.e.f 16-JUN-13
PRACHITH K (29499),	w.e.f 16-JUN-13
SEHRAWAT SANDEEP (29475),	w.e.f 16-JUN-13
ANAND MOHIT (29515),	w.e.f 16-JUN-13
MANAPATTIL RATHIESH NARAYANAN (29510),	w.e.f 16-JUN-13
YADAV VIKAS (29519),	w.e.f 16-JUN-13
MASSEY SUMIT (29489),	w.e.f 16-JUN-13
PANJIYAR RAHUL KUMAR (29508),	w.e.f 16-JUN-13

FG OFFR TO BE SUBSTANTIVE FLT LT

ADM BRANCH

BS RAJA SEKHAR (31813),	w.e.f 18-JUN-13
-------------------------	-----------------

LGS BRANCH

GOURI SANKAR PANDEY (31814),	w.e.f 18-JUN-13
------------------------------	-----------------

EDN BRANCH

SN SINGH (31815),	w.e.f 18-JUN-13
-------------------	-----------------

F(P) BRANCH

S SARIN (31747),	w.e.f 18-JUN-13
A BUDHWAR (31753),	w.e.f 18-JUN-13
A K DUBEY (31755),	w.e.f 18-JUN-13
MUSTAQ AHMED (31743),	w.e.f 18-JUN-13
R PANDEY (31793),	w.e.f 18-JUN-13
A SIVANAND (31750),	w.e.f 18-JUN-13
YOGESH KANDPAL (31790),	w.e.f 18-JUN-13
S SAURABH (31780),	w.e.f 18-JUN-13
S G WANKHADE (31751),	w.e.f 18-JUN-13
S G JHABARWAL (31771),	w.e.f 18-JUN-13

A ASTHANA (31785),	w.e.f 18-JUN-13
S S SHINDE (31752),	w.e.f 18-JUN-13
PARITOSH BANSAL (31774),	w.e.f 18-JUN-13
P YADAV (31744),	w.e.f 18-JUN-13
RAKESH RAMAN (31772),	w.e.f 18-JUN-13
P BIJALWAN (31758),	w.e.f 18-JUN-13
S K TOMER (31769),	w.e.f 18-JUN-13
KUMAR RANVIJAY (31781),	w.e.f 18-JUN-13
J S SANDHU (31778),	w.e.f 18-JUN-13
KARAN DUDGUNDI (31799),	w.e.f 18-JUN-13
S A RATHER (31764),	w.e.f 18-JUN-13
V TIWARI (31770),	w.e.f 18-JUN-13
N YADAV (31761),	w.e.f 18-JUN-13
T TANDON (31788),	w.e.f 18-JUN-13
DEEPAK SEHGAL (31797),	w.e.f 18-JUN-13
ALBIN KURIAKOSE (31757),	w.e.f 18-JUN-13
JP PARIDA (31795),	w.e.f 18-JUN-13
R M CHOUDHARY (31775),	w.e.f 18-JUN-13
ABHISHEK GURWARA (31777),	w.e.f 18-JUN-13
TK SIVAKUMAR (31749),	w.e.f 18-JUN-13
I S KELKAR (31760),	w.e.f 18-JUN-13
PRASHANT KUMAR (31759),	w.e.f 18-JUN-13
SA DAMGUDE (31789),	w.e.f 18-JUN-13
K VINOTH VANYA (31776),	w.e.f 18-JUN-13
KUMAR GAURAV (31794),	w.e.f 18-JUN-13
AVINASH (31783),	w.e.f 18-JUN-13
V P JAIKAR (31745),	w.e.f 18-JUN-13
VIVEK ANAND (31754),	w.e.f 18-JUN-13
SWAPNIL DONGARE (31765),	w.e.f 18-JUN-13
MOHIT CHOUDHARY (31773),	w.e.f 18-JUN-13
A SALARIA (31746),	w.e.f 18-JUN-13
S S SAWANT (31786),	w.e.f 18-JUN-13
NIKET KARNATAK (31784),	w.e.f 18-JUN-13
VK JAISWAL (31768),	w.e.f 18-JUN-13
SB NAIR (31763),	w.e.f 18-JUN-13
RAKESH GILL (31782),	w.e.f 18-JUN-13
B HARI KRISHNA (31756),	w.e.f 18-JUN-13
ANAND G KRISHNAN (31767),	w.e.f 18-JUN-13
KT JAMWAL (31791),	w.e.f 18-JUN-13
DEEPAK GULATI (31889),	w.e.f 25-JUN-13
A KULHAR (31887),	w.e.f 25-JUN-13
JAITNJEET SINGH (31886),	w.e.f 25-JUN-13

P A KODGULE (31884),	w.e.f 19-JUN-13
SIDDHARTH SINGH (31891),	w.e.f 03-JUL-13

F(N) BRANCH

GS MARWAHA (31839),	w.e.f 18-JUN-13
ANISH MENON (31824),	w.e.f 18-JUN-13
SAHIL JAIN (31841),	w.e.f 18-JUN-13
AYUSH AWASTHI (31779),	w.e.f 18-JUN-13
H K GUPTA (31800),	w.e.f 18-JUN-13
MK CHAUDHARY (31796),	w.e.f 18-JUN-13
SOMAIAH C G (31838),	w.e.f 18-JUN-13
NIRANJAN PRABHU (31787),	w.e.f 18-JUN-13
SAGAR KUMAR (31766),	w.e.f 18-JUN-13
PRATYUSH RAJ (31792),	w.e.f 18-JUN-13
R S RAJAWAT (31748),	w.e.f 18-JUN-13
C K CHOUDHARY (31836),	w.e.f 18-JUN-13

F(P) BRANCH

GURIQBAL KUTWAL (31833),	w.e.f 18-JUN-13
K SURANI (31817),	w.e.f 18-JUN-13
P PHAGRE (31831),	w.e.f 18-JUN-13
JAISS MON RAJU (31832),	w.e.f 18-JUN-13
RANVIR SINGH (31834),	w.e.f 18-JUN-13
MAYANK ABHISHEK (31823),	w.e.f 18-JUN-13
K RAGHAV (31820),	w.e.f 18-JUN-13
A SINGH (31822),	w.e.f 18-JUN-13
SHALIN SHARMA (31828),	w.e.f 18-JUN-13
DEEPAK SETH (31840),	w.e.f 18-JUN-13
VINEET JOSHI (31829),	w.e.f 18-JUN-13
SATYAPRAKASH MISHRA (31837),	w.e.f 18-JUN-13
ANKUR PAWAR (31821),	w.e.f 18-JUN-13
A PATYAL (31835),	w.e.f 18-JUN-13
R R NAIR (31818),	w.e.f 18-JUN-13
DEVANK SHARMA (31816),	w.e.f 18-JUN-13
A SHUKLA (31830),	w.e.f 18-JUN-13
SEEMA SHEORAN (31865),	w.e.f 18-JUN-13
AMRITA M (31866),	w.e.f 18-JUN-13
SUNENA MALIK (31864),	w.e.f 18-JUN-13
KIRTI (31862),	w.e.f 18-JUN-13
GAYATHRI R. NAIR (31863),	w.e.f 18-JUN-13
NILOFER TARIQ (31893),	w.e.f 18-JUL-13
PALLAVI MOHAPATRA (31885),	w.e.f 19-JUN-13

PS SURANGE
Wg Cdr
JD PO-3(D)
Air HQ (VE)

ARMY BRANCH
C O R R I G E N D A

No. 189, dated 9th August 2016—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
To be Lt w.e.f 13 May 2000

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 106 Regular Course published in the Gazette of India dated 02 Jun 2001 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is hereby amended as under :-

For	JADHAV SAMPATRAO DATASAHEB	IC-59884P	ARTY
Read	JADHAV SAMPATRAO DADASAHEB	IC-59884P	ARTY

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
To be 2/Lt w.e.f 19 Dec 1992

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 91 Regular Course published in the Gazette of India dated 11 Dec 1993 under the heading of “Permanent Commission” in the rank of 2/Lt in Regular Army is hereby amended as under :-

For	S MURUGANANTHAN	IC-51588P	ARTY
Read	S MURUGANANTHAM	IC-51588P	ARTY

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
To be 2/Lt w.e.f 07 Dec 1996

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 99 Regular Course published in the Gazette of India dated 07 Feb 1998 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is hereby amended as under :-

For	GENESH V RAGHAVAN	IC-56898K	MECH
Read	GANESH V RAGHAVAN	IC-56898K	MECH

SN MISHRA
Lt Col
AMS 8B

ARMY BRANCH
C O R R I G E N D A

No. 190, dated 10th August 2016—The President is pleased to make the following appointment:-

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
To be 2/Lt w.e.f 11 Jun 1988

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 65 Technical Graduate Course published in the Gazette of India dated 22 Jul 1989 under the heading of “Permanent Commission” in the rank of 2/Lt in Regular Army is hereby amended as under :-

For	Dhiraj Mohan	IC-47960A	Engrs
Read	Dhiraj Mohan	IC-47960K	Engrs

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
To be 2/Lt w.e.f 16 Dec 1989

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 68 Technical Graduate Course published in the Gazette of India dated 08 Sep 1990 under the heading of “Permanent Commission” in the rank of 2/Lt in Regular Army is hereby amended as under :-

For	Chander Shekhar Bandale	IC-49374A	EME
Read	Chandra Shekhar Bandale	IC-49374A	EME

ABHISHEK TEWARY
Maj
AMS 8B

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in